



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28, 1984 (माघ 8, 1905)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 1984 (MAGHA 8, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 1984

सं० 144, दिनांक 22 दिसम्बर 1983—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय संवर्ग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चयन ग्रेड "ग" के निम्नलिखित अधिकारियों को 1-12-1983 से 16-12-1983 तक की और अवधि तथा 17-12-83 से अगला आदेश होने तक चयन सूची अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण दीर्घकालीन रितियों पर रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उक्त सेवा की ग्रेड "ख" की अस्थायी रितियों पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री यू० एन० तलवार
2. श्री एन० पी० जेतली
3. श्री सी० एस० वैकटेश्वरन
4. श्री वी० पार्थसारथी

सं० 145, दिनांक 29 दिसम्बर 1983—संयुक्त समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1982 के परिणाम के आधार पर केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 1982 की ग्रेड "ख" की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय संवर्ग में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पआशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री ओम प्रकाश को 26-12-1983 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक रक्षा मंत्रालय में उक्त सेवा के ग्रेड "ख" में नियुक्त करते हैं।

2. श्री ओम प्रकाश की उपर्युक्त नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी सिविल रिट याचिका सं० 284/1975 के निर्णय की शर्त पर होगी।

एल० एन० मेहतन, सचिव

मुख्य प्रशासन अधिकारी का यालय

संख्या 146 दिनांक 11 अक्तूबर 1983—राष्ट्रपति स्थायी सहायक/स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री द्वारका प्रसाद को सशस्त्र सेना मुख्यालय में 1 मार्च 1982 से सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप बी-राजपत्रित) के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं तथा उनको श्री टी० आर० आनन्द के ऊपर तथा श्री हर प्रसाद के नीचे स्थान देते हैं ।

सं० 147, दिनांक 2 जनवरी 1984—अधिवर्ष की आयु प्राप्त करने पर श्री ए० एन० कोहली स्थायी सी० एस० ओ०/स्थानापन्न एस० सी० एस० ओ० 31 दिसम्बर 1983 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त और 91 जनवरी 1984 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में बदली किया जाता है ।

दुली चन्द्र उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 148, दिनांक 31 दिसम्बर 1983—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

श्री इकबाल सिंह को दिनांक 6-10-1983 (पूर्वाह्न) से यन्त्र अनुसंधान तथा विकास स्थापना देहरादून में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर दो वर्ष की परखावधि पर ।

श्री दयाकान्त श्रीवास्तव को तारीख 6-10-83 (पूर्वाह्न) से यन्त्र अनुसंधान तथा विकास स्थापना देहरादून में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर दो वर्ष की परखावधि पर ।

डा० रामप्रसाद आर० पणयम को दिनांक 19-9-1983 (पूर्वाह्न) से रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला हैदराबाद में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर (तदर्थ आधार पर), एक वर्ष की अवधि के लिये ।

सं० 149 दिनांक 31 दिसम्बर 1983—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

श्री एम० देवनाथन वैज्ञानिक "बी" रक्षा बायो इंजीनियरिंग एवं वैद्युत चिकित्सा प्रयोगशाला बंगलौर को दिनांक 1-7-1982 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थापन वैज्ञानिक "सी" के पद पर ।

श्री एस० सी० श्रीमाली, वैज्ञानिक "बी" आवासिक तकनीकी कार्यालय, नासिक को तारीख 1-7-1982 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थापनापन्न वैज्ञानिक "सी" के पद पर ।

एम सी० सकारिया, सहायक निदेशक (कार्मिक)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 150, दिनांक 30 दिसम्बर 1983—निम्नलिखित को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल का अवैतनिक रैंक प्रदान किया

किया जाता है तथा उनके अमरावती युनिवर्सिटी के कुलपति पद पर रहने की अवधि तक उन्हें अवैतनिक कर्नल कमांडेंट एन० सी० सी० नियुक्त किया जाता है

डा० काशीराव गोविन्दराव देशमुख, अमरावती युनिवर्सिटी विदर्भा महाविद्यालय कम्पस अमरावती 4 अगस्त 1983 ।

जे० के० गोदरा, उप सचिव (शिक्षण एवं समारोह)

संयुक्त बीज लेख ब्यूरो

सं० 151, दिनांक 31 दिसम्बर 1983—राष्ट्रपति प्रणाली सुरक्षा अधिकारी श्री राम मोहन दास को संयुक्त बीजलेख ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय में 26-11-1983 से अगले आदेश जारी होने तक वरिष्ठ सुरक्षा प्रणाली अधिकारी ग्रेड-2 (तकनीकी) ग्रुप "ए" (राजपत्रित) के रूप में, मौजूदा रिक्ति पर, नियुक्त करते हैं ।

(डी० जी० ए० एफ० एम० एस०)

सं० 152, दिनांक 4 जनवरी 1984—श्री वी० एस० वंसल, सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 31-12-1983 को 58 वर्ष की निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर 31-12-83 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1-1-84 (पूर्वा०) से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित ।

एस० पी० महेश्वरी, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(निरीक्षण महानिदेशालय)

सं० 153 दिनांक 3 जनवरी 1984—थल सेना शाखा के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री जे० पी० जैन, 30 दिसम्बर 1983 को 58 वर्ष की निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर 31 दिसम्बर 83 (अपराह्न) को सेवा से निवृत्त तथा 1 जनवरी 84 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित ।

आर० डी० शर्मा, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं० 154, दिनांक 5 जनवरी 1984—निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने नामों के सामने दी गई तिथियों से पद त्याग किया :—

निरीक्षण नियंत्रणालय (गोला-बारूद), किरकी के श्री डी० टी० भमवल, अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी (स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक) सेवा निवृत्त हुए ।—31 जनवरी, 1983 (अपराह्न)

आयुद्ध निरीक्षणालय, चन्द्रपुर के श्री वी० बी० नेडनगड़ी, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (स्थायी फोरमैन) सेवा निवृत्त हुए ।—31 जुलाई 1982 (अपराह्न)

निरीक्षण नियंत्रणालय (गोला-बारूद), किरकी के श्री थोमस मैथ्यू, अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी (स्थायी कार्यालय अधीक्षक-11) का स्वर्गवास हुआ, 25 सितम्बर 1982 ।

लघु शस्त्र निरीक्षणालय, इच्छापुर के श्री बी० पी० चटर्जी, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (स्थायी मुख्य नकशानवीस) सेवा निवृत्त हुए। 28 फरवरी 1982 (अपराह्न)

आयुद्ध निरीक्षणालय, खमरिया, के श्री एन० एल० कृष्णा-मूर्ति, अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी II (स्थायी फोरमैन) स्वर्गवासी हो गये। 30 जनवरी 1981

के० जी० गुप्ता, अवर सचिव

संख्या 155, दिनांक 9 जनवरी 1984—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित स्थायी फार्म अधिकारी की सैनिक फार्म विभाग में उसके नाम के सामने दी गई तिथि से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सहायक निदेशक सैनिक फार्म (डी० ए० डी० एम० एफ०) के रूप में नियुक्ति करते हैं :—

श्री चेत राम (एम० एफ० डी०—5016), 08 जून 83

यह अधिकारी दो वर्ष की परखावधि पर होंगे।

विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी कोर

सं० 156, दिनांक 9 जनवरी 1984—राष्ट्रपति जी श्री नैलिनि रन्जन पाल, अस्थाई लेक्चरर को अस्थाईवत लेक्चरर के रूप में दिनांक 29 नवम्बर 1983 से ई० एम० ई० कोर में नियुक्ति करते हैं।

आर० डी० राजवंशी, अवर सचिव

थल सेना मुख्यालय

(जी० एस० शाखा)

सं० 157, दिनांक 3 जनवरी 1984—थल सेना मुख्यालय के प्रधान अन्वेषण अधिकारी श्री सी० पी० मल्होत्रा, निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर, 31 दिसम्बर 1983 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1 जनवरी 1984 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित।

सं० 158, दिनांक 5 जनवरी 1984—निम्नलिखित अधिकारी निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर 31-12-83 (अपराह्न) सेवा से निवृत्त और 1 जनवरी 1984 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित :—

1. श्री जी० पी० गर्ग, वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी एम० डी० निदेशालय

2. श्री प्रीतम सिंह, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी जी० एस०/एम० टी० निदेशालय

थल सेना शाखा

(ई० इन सी० शाखा)

सं० 159, दिनांक 3 जनवरी 1984—राष्ट्रपति मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के अस्थाई सहायक श्री ए० रामा कृष्णा राव को 19-12-1983 से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते हैं।

एस० पी० महेश्वरी, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सैनिक अभियंता सेवायें

सं० 160, दिनांक 9 जनवरी 1984—श्री पौलराज जयसिंह को राष्ट्रपति जी सहर्ष 10 जून 1983 (पूर्वाह्न) से अस्थाई वरिष्ठ स्टोर्स आफिसर के रूप में नियुक्ति करते हैं। वह दो साल की अवधि के लिये परिवीक्षाअधीन होंगे।

सं० 161, दिनांक 6 जनवरी 1984—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा समाप्त हुई :—
एम० ई० एस० 141070 श्री संतानु कुमार सतपथी
ए० ई० ई० (स्थाई), ई० ई० (अस्थाई), 30 अप्रैल 83 (अपराह्न)

एम० ई० एस० 154212 श्री ए० एन० शर्मा, सी० ए० एस० ओ० (अस्थाई) 31 मई 83 (अपराह्न)।

आर० डी० राजवंशी, अवर सचिव

सं० 162, दिनांक 9 नवम्बर 1983—राष्ट्रपति सहर्ष थलसेना अनुदेश 14/79 द्वारा यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

अर्द्ध स्थाई मजर के रैंक में (परख पर)

श्रीमति मरीनालिनी सेन, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 10872 डब्ल्यू), ए० एम० सी०, 20 मई 1982 ज्येष्ठता 8 सितम्बर 1974 से (जिसमें पूर्व पूर्ण वेतन सेवा के लिए 8 वर्ष 28 दिन शामिल है, जो कि उपदान के लिए नहीं गिनी जायेगी) सिवाय अर्द्धस्थायी मजर के रैंक में जो कि 8 सितम्बर 1980 से वेतन और भत्ते के लिए गिनी जायेगी।

(8 जनवरी 1983 को प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 57 दिनांक 4 नवम्बर 82 को जहाँ तक इस अफसर से सम्बन्धित है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेंट/कैप्टन के रैंक में परख पर)

मनोज सेठी, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11107 पी) ए० एम० सी०, 21 मई 1983

कैप्टन के रैंक में (परख पर)

ख्याती भूसन देव, (एम० बी० बी० एस० एम० एस० 11055 के) ए० एम० सी० 09 मई 1983।

अनिल शर्मा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11085 एफ) ए० एम० सी० 1 जुलाई 1983। नौशनल ज्येष्ठता 25 जून 1983 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते के लिए नहीं गिनी जायेगी।

अतुल कपिला एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11086 के) ए० एम० सी०, 1 जुलाई 1983 नौशनल ज्येष्ठता 25 जून 1983 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते के लिए नहीं गिनी जायेगी।

नारायण श्रीनिवास गुडि, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11089 एक्स) एम० एम० सी०, 9 जुलाई 1983।

अश्वनि कुमार कुकरेजा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11097 डब्ल्यू) ए० एम० सी०, 30 जुलाई 1983 नोशनल ज्येष्ठता 25 जून 1983 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते के लिए नहीं गिनी जायेगी।

लेफ्टिनेंट के रैंक में (परख पर)

गिरीराज सिंह राणावत, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11053 व०) ए० एम० सी०, 1 जनवरी 1983।

बिजेन्द्र कुमार जैन एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11070 व०) ए० एम० सी०, 25 जून 1983।

देवेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, एम० बी० बी० एस०, एम० एस० 11071 एफ) ए० एम० सी० 25 जून 1983।

लेफ्टिनेंट के रैंक में (परख पर)

अरुण कुमार जैन, (एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11072 के) ए० एम० सी०, 26 जून 1983, नोशनल ज्येष्ठता 25 जून 1983 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते के लिए नहीं गिनी जायेगी।

एम० प्रदीप नम्बयार, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस० 11066 डब्ल्यू०) ए० एम० सी०, 27 जून 1983।

अलोक रंजन सिन्हा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11067 एक्स) ए० एम० सी०, 27 जून 1983।

कागेरे शिवालिंगया परवश, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11078 एल) ए० एम० सी० 29 जुलाई 1983, नोशनल ज्येष्ठता 25 जून 1983 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते के लिए नहीं गिनी जायेगी।

कुलदीप कुमार कौल, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11075 के) ए० एम० सी०, 3 जुलाई 1983)।

इन्दर पाल अरोड़ा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 11076 ए), एम० एम० सी० 16 जुलाई 1983, नोशनल ज्येष्ठता 25 जून, 1983 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते के लिए नहीं गिनी जायेगी।

बी० जे० श्रीवास्तव, अवर सचिव

अल्पकालीन सेवा आयोग (जो परखाधीन है)

सं० 163, दिनांक 24 दिसम्बर 1983—निम्नलिखित को पांच वर्ष के लिए सैनिक अनुदेश 11 (एस०/64 के अन्तर्गत 12 मार्च, 1983 से 2/लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालीन सेवा (जो परखाधीन है) परखाधीन समय समाप्त होने पर उसी तिथि से पुष्ट किया जाता है :—

गुरुरत्ना रोजनेन मोहनचन्द्रम (एस० एस० 31317 डब्ल्यू) तथा मोहिन्दर सिंह नेगी (एस० एस० 31321 बाई) इंफैंट्री, रामेश एन (एस० एस० 31326 एल्स) सिगनल्स,

बीरेन्द्रा कुमार त्यागी (एस० एस० 31329 एल०) ई० एम० ई०, अमरजीत सिंह (एम० एस० 31338 एम०) तथा नरेन्द्र कुमार (एस० एस० 31339 पी०) इंफैंट्री, राजेश्वर सिंह (एस० एस० 31341 एम), ई० एम० ई०, फरनेडीज गीराल्ड जौन (एस० एस० 31345 एच) मैक इंफैंट्री, कुलजिन्दर सिंह (एस० एस० 31348 डब्ल्यू०), इंफैंट्री, बलविन्दर सिंह विरक (एस० एस० 31353 एफ०) मैक इंफैंट्री, कुलदीप सिंह ठिकारा (एस० एस० 31357 एक्स) इंफैंट्री, महाजन दलीप कुमार जगननाथ (एस० एस० 31376 एच) अशोक कुमार सिंह ए०एस०सी०, (एस० एस० 31384-एफ, जंग शेर सिंह चाहल (एस० एस० 31389 ए) तथा सतेंद्रसिंह पुंडीर (एस० एस० 31393 एच०) मैक इंफैंट्री, राज कुमार शर्मा (एस० एस० 31397 वाई) ए० एस० सी०, विनोद बालाराम नायर (एस० एस० 31404 के) सिगनल्स, सोम कुमार रावत (एस० एस० 31406 पी), अनिल रैना (एस० एस० 31409 एच) तथा वेद पाल सिंह (एस० एस० 31412 एच) इंफैंट्री,

ब्रिजेंद्र प्रसाद (एस० एस० 31430 एल०) ई० एम० ई० तथा इन्द्र पाल सिंह (एस० एस० 31432 डब्ल्यू) ए० एस० सी०।

सुभाष चन्द्र, लेफ्टिनेंट कर्नल, सहायक सैनिक सचिव-8 बी

सं० 164, दिनांक 12 दिसम्बर 1983—राष्ट्रपति सहूर्ध परख अवधि पूरा होने पर निम्नलिखित अफसर को पक्का करते हैं :—

(नियमित सेना)

स्थायी कमीशन

लेफ्टि० एस० डी० राम, (एन० टी० आर०-16399 एम०, सैनिक डाक्टर कोर (गैर-तकनीकी), 25 मार्च 1980।

अल्पकालीन कमीशन

मेजर श्री० पी० श्रीवास्तवा, (एम० एस० 10905 डब्ल्यू), ए० एम० सी०, 19 जुलाई 1982।

कैप्टन बी० के० के० वारया (एम० एस० 10753 ए), ए० एम० सी०, 30 सितम्बर 1981।

कैप्टन बी० विश्वनाथ (एम० एस० 10783 एक्स) ए० एम० सी०, 15 फरवरी 1982।

कैप्टन जी० कमलापुरकर, (एम० एस० 10796 पी) ए० एम० सी०, 17 फरवरी 1982।

कैप्टन श्री० पी० सिंह, (एम० एस० 10802 एक्स) ए० एम० सी० 20 फरवरी 1982।

कैप्टन एस० एस० छारा (एम० एस० 10843 एफ) ए० एम० सी० 16 अप्रैल 1982।

कैप्टन के० चनन (एम० एस० 10851 ए) ए० एम० सी०, 19 अप्रैल 1982।

कैप्टन पी० एस० पीखरिया (एम० एस० 10855 डब्ल्यू), ए० एम० सी०, 26 अप्रैल 1982।

कैप्टन (श्रीमति) रीता ददवाल, (एम० एस० 10862 एम), ए० एम० सी०, 12 मई 1982।

कैप्टन के० बी० गुप्ता (एम० एस० 10885 एन०) ए० एम० सी०, 5 जून 1982।

कैप्टन टी० एस० अलुवालिया (एम० एस० 10714 एफ), ए० एम० सी०, 21 जून 1981।

लैफ्टिनेंट (अब कैप्टन) मिस मीना सिंह, (एम० एस० 10733 एम), 15 सितम्बर 1981।

लैफ्टिनेंट (अब कैप्टन) मिस आर० के० गिल (एम० एस० 10856 वै), ए० एम० सी०, 5 अप्रैल 1982।

लैफ्टिनेंट पी० चक्रवर्ती (एम० एस० 10732 के), ए० एम० सी०, 15 सितम्बर 1981।

सर्जन सब लैफ्टिनेंट ए० भाटिया (एम० एस० 10928 एक्स), (75287 एफ) ए० एम० सी०, 22 अगस्त, 1982।

वी० के० श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं० 165, दिनांक 9 जनवरी 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

इफेंटी

1 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मकान सिंह गुरूंग (जे० सी० 53917 वाई), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क दत्तात्रय पोतेकर (जे० सी० 59607 के), 1 जून 1982।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मगन सिंह खली (जे० सी० 45084 एल), 1 जनवरी 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरका बहादुर थापा (जे० सी० 81606 एफ), 1 जनवरी 1982।

नायब सूबेदार मन बहादुर गुरूंग (जे० सी० 93323 एम०), 1 फरवरी, 1982।

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर राना (जे० सी० 93324 पी), 1 मार्च 1982।

4 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जुम बहादुर गुरूंग (जे० सी० 56143 एम०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पीथी बहादुर थापा (जे० सी० 91893 के), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रा बहादुर थापा (जे० सी० 89503 एक्स), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार भुवान सिंह गुरूंग (जे० सी० 88216 एफ), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रा बहादुर राना (जे० सी० 89497 पी), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रामनी गुरूंग (जे० सी० 91153 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार भीम बहादुर गुरूंग (जे० सी० 92777 एन), 1 अप्रैल 1982।

मिनेडियर्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हिम्मत खां (जे० सी० 48965 पी), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार प्रभात चन्द वर्मा (जे० सी० 47863 एम), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार मान सिंह (जे० सी० 63717 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार करतार चन्द (जे० सी० 72124 एल०), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार भंवरु खां (जे० सी० 27716, एच), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार जहुर खां (जे० सी० 45986 ए), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार किशन सिंह (जे० सी० 37646 एच), 1 जून 82।

सूबेदार मोहम्मद यासीन (जे० सी० 61535 के), 1 जून 1982।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) भूप सिंह धूल (जे० सी० 77630 ए), 1 जुलाई 82।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुगन सिंह (जे० सी० 35935 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 82।

सूबेदार जय सिंह (जे० सी० 61558 एल), 1 अगस्त 82।

सूबेदार पदम नाभ (जे० सी० 41930 डब्ल्यू),
1 अक्टूबर 1982 ।

सूबेदार रतन सिंह (जे० सी० 64025 एन०),
1 अक्टूबर 1982 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी० 82619 एल०),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार मेहर चन्द (जे० सी० 90251 एच०),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी० 84458 एम०),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार ज० नारायण (जे० सी० 68296 एच०),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार विक्रमाजीत (जे० सी० 82633 एक्स),
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार बेहराम सिंह (जे० सी० 68297
एन), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार उमद खां (जे० सी० 83749 ए०),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रताप सिंह (जे० सी० 83386
एफ) 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार दरयाब सिंह (जे० सी० 94359 एक्स),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार नथु सिंह (जे० सी० 99511 के),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार मकरान्द सिंह (जे० सी० 1022 एन),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी० 101899 एफ),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार सत्तार खां कयाम खानी (जे० सी०
83748 एक्स), 1 जून 82 ।

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जे० सी० 83387 के),
1 जून 82 ।

नायब सूबेदार दयानन्द (जे० सी० 83675 डब्ल्यू),
1 जून 82 ।

नायब सूबेदार युनस अली (जे० सी० 83688 एन),
1 जुलाई 82 ।

नायब सूबेदार मलखान पाल (जे० सी० 99092 एक्स)
1 जुलाई 82 ।

नायब सूबेदार नोबत राम (जे० सी० 97109 एफ),
1 अगस्त 82 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी० 93400 डब्ल्यू),
1 अगस्त 82 ।

नायब सूबेदार हुसैन खां (जे० सी० 77072 के), 1
मई 81 ।

नायब सूबेदार कल्याण सिंह शेखावत (जे० सी० 93373
एक्स), 1 नवम्बर 81 ।

नायब सूबेदार रियासत अली (जे० सी० 78876
एल), 1 दिसम्बर 81 ।

नायब सूबेदार भगत राम (जे० सी० 93399 एम),
1 दिसम्बर 81 ।

नायब सूबेदार अम्बा लाल (जे० सी० 77440 एन),
1 जनवरी 82 ।

नायब सूबेदार प्रोतम सिंह (जे० सी० 80033 डब्ल्यू),
1 जनवरी 82 ।

नायब सूबेदार पीताम्बर सिंह (जे० सी० 85970
एक्स), 1 जनवरी 82 ।

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जे० सी० 84069 एम),
1 फरवरी 82 ।

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जे० सी० 85971 ए),
1 फरवरी 82 ।

नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी० 73982 ए), 1
मार्च 82 ।

नायब सूबेदार पन्ना सिंह (जे० सी० 93401 वाई),
1 मार्च 1982 ।

नायब सूबेदार वजीद खां (जे० सी० 66650 एन),
1 अक्टूबर 81 ।

नायब सूबेदार नमदर खां (जे० सी० 72546 डब्ल्यू),
1 जनवरी 82 ।

नायब सूबेदार महेशदान सिंह (जे० सी० 69952 एल),
1 अक्टूबर 1982 ।

नायब सूबेदार रूप सिंह (जे० सी० 93708 के), 1
नवम्बर 81 ।

नायब सूबेदार देवी सिंह (जे० सी० 79703 ए), 1
दिसम्बर 81 ।

नायब सूबेदार हरफूल सिंह (जे० सी० 80788 एन),
20 दिसम्बर 81 ।

नायब सूबेदार सावल राम (जे० सी० 79705 एल),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार नेत्र पाल (जे० सी० 82630 के), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जे० सी० 84068 के),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार मूल चन्द (जे० सी० 84457 के),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार नन्द लाल सिंह (जे० सी० 83692 डब्ल्यू),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार त्रिभुवन (जे० सी० 83693 वाई), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जे० सी० 83677 वाई),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार किशन लाल (जे० सी० 84103 एफ),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जगत राम (जे० सी० 84446ए), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार करन सिंह तंवर (जे० सी० 86539
एल) 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जे० सी० 86540ए), 1 अप्रैल
82 ।

नायब सूबेदार पदम सिंह (जे० सी० 93711 के),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार कमलेश सिंह (जे० सी० 98862 एम),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार नागायण सिंह (जे० सी० 99512 एम),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार किशन सिंह (जे० सी० 84690 एल),
6 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार बद्री नारायण (जे० सी० 84488 के),
50 अप्रैल 82 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क राम सिंह (जे० सी० 97116 एक्स)
1 अप्रैल 82 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जे० सी० 83382 एल),
1 अक्टूबर 81 ।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी० 98652 एम),
24 फरवरी 82 ।

नायब सूबेदार कर्म चन्द (जे० सी० 90250 ए),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जगदीश राम (जे० सी० 82610 डब्ल्यू)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह पनवार (जे० सी० 84101
डब्ल्यू), 1 अप्रैल 8 ।

नायब सूबेदार धप सिंह (जे० सी० 83678 के) 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार रत्न चन्द (जे० सी० 84463 एक्स),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी० 90254 डब्ल्यू),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार प्यार चन्द (जे० सी० 91803 एक्स),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार बारे सिंह (जे० सी० 94207 डब्ल्यू),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार तरसेम लाल (जे० सी० 94352 एन),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार मगत राम कश्यप (जे० सी० 94357
एम) 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी० 92895 एफ),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार मोहन खां (जे० सी० 67569 एन), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जे० सी० 82628 एच),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार तारा चन्द (जे० सी० 86935 एफ),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार बिधी चन्द (जे० सी० 96549 एच),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जे० सी० 95263 एफ),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जिले सिंह (जे० सी० 94358 पी), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार शक्ति चन्द (जे० सी० 84096 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जनक राम (जे० सी० 100201 एन),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार शामसिंह (जे० सी० 102930 पी),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी० 99289 एन),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार सलेम खां (जे० सी० 69955 वाई), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार भरत सिंह (जे० सी० 85859 एन),
1 जून 82

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जगन नाथ (जे० सी० 85972
एच), 24 फरवरी 82 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार वीरपाल सिंह (जे० सी० 77626 एक्स),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार योरतन सिंह (जे० सी० 81178 डब्ल्यू)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार मुराद खां (जे० सी० 84093 एच),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जयहिन्द सिंह (जे० सी० 98867 एल),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी० 90253 एन),
17 मई 82 ।

नायब सूबेदार अमीर सिंह (जे० सी० 86535 पी), 1
अगस्त 82 ।

नायब सूबेदार तारा चन्द (जे० सी० 86536 एक्स),
1 अगस्त 82 ।

नायब सूबेदार भगवान वक्ससिंह (जे० सी० 91309 एफ), 1 अगस्त 82 ।

नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी० 90255 वाई),
1 सितम्बर 82 ।

नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जे० सी० 93709 एम), 1
सितम्बर 82 ।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार कलर्क जसवन्त सिंह (जे० सी० 100204 एफ) 1 जुलाई 82 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार किशन लाल (जे० सी० 83384 डब्ल्यू),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार नफे सिंह (जे० सी० 82366 पी), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार खुरशीद अली (जे० सी० 94867 एन)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार हरि सिंह (जे० सी० 96545 एम),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार रिमाल सिंह मुहाग (जे० सी० 94205 एल), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार विजयसिंह (जे० सी० 82606 एन), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार परवेज चन्द (जे० सी० 99287 एच),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जय पाल सिंह (जे० सी० 81553 एन), 1
अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार जय लाल (जे० सी० 98865 ए), 1 जून 82

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) रन सिंह गुलिया (जे० सी० 85938 पी) अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) सवाई सिंह (जे० सी० 79044 के)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राज सिंह (जे० सी० 89465 एम), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) धुन्नु राम (जे० सी० 97117 ए),
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) माहा सिंह जाटान (जे० सी० 90257 के), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) दरयावसिंह (जे० सी० 90258 एम)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) श्री राम यादव (जे० सी० 90259 पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम दास (जे० सी० 90260 के०)
1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) जागीर सिंह (जे० सी० 97118 एच), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) देवीन्द्र पालभास्कर (जे० सी० 98657 एल), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) अमर सिंह (जे० सी० 98658 एन), 1 अप्रैल 82

नायब सूबेदार (क्लर्क) होशियार सिंह (जे० सी० 84071 के), 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) आशा राम यादव (जे० सी० 98659 डब्ल्यू०) 1 अप्रैल 82 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) श्योनाथ सिंह (जे० सी० 99290 एच), 1 अप्रैल 82 ।

जम्मू व काश्मीर लाईट ईंफैंट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार देवी दास शर्मा (जे० सी 257 एल), 1 अप्रैल 82 ।

सूबेदार गुलाम हैदर (जे० सी० 223 एक्स), 1 अप्रैल 82 ।
सूबेदार बसन्त सिंह (जे० सी० 277 वाई), 1 अप्रैल 82 ।

सूबेदार निजाम दीन (जे० सी० 260 एन). 1 मई 82 ।

सूबेदार जनक सिंह (जे० सी० 282 के०) 1 सितम्बर 1982 ।

सूबेदार अली मोहम्मद शाह (जे० सी० 262 डब्ल्यू०)
1 सितम्बर 1982 ।

सूबेदार मुहम्मद हनी (जे० सी० 298 पी०) 1 जून 1982 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी० 92000 एक्स०)
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार नूर दीन खान (जे० सी० 92020 एल०)
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार अनवर लोन (जे० सी० 92022 एन०)
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार जगपाल सिंह (जे० सी० 452 एच०)
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार वकील दास (जे० सी० 91978 ए०)
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द (जे० सी० 92013 पी०)
1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 92018 एन०).
1 जून 1982 ।

नायब सुबेदार राम कृष्ण (जे० सी० 9072975 एल०) 1 जून 1982।

नायब सुबेदार मुनशी राम (जे० सी० 9072808 पी०): 1 जून 1982।

नायब सुबेदार देस राज (जे० सी० 91998 एन०) 1 जून 1982।

नायब सुबेदार सरवन सिंह (9074681 डब्ल्यू) 1 जून 1982।

नायब सुबेदार अली सोफी (जे० सी० 458 एल 2) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार फते शेर (जे० सी० 459 एम०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार प्रेम नाथ (जे० सी० 92006 एक्स०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार रतन सिंह (जे० सी० 460 एफ०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार ओम प्रकाश (जे० सी० 472 डब्ल्यू०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार गुचन दास (जे० सी० 473 वाई०) 1 मई 1982।

नायब सुबेदार ठाकुर दास (जे० सी० 478 एफ०) 1 जून 1982।

नायब सुबेदार जय कृष्ण (जे० सी० 92002 एच०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार सीता राम (जे० सी० 480 पी०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार कुशल चंद (जे० सी० 481 एक्स०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार कुशल सिंह (जे० सी० 483 एच०): 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार जगदीश सिंह (जे० सी० 456 ए०) 1 अप्रैल 1982।

सुबेदार (कर्लक) के रैंक में

नायब सुबेदार (कर्लक) कशमीर सिंह (जे० 91963 एक्स०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार (कर्लक) चमन लाल बठ (जे० सी० 91980 एक्स०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार (कर्लक) बखतावर खान (जे० सी० 92011 के०): 1 अप्रैल 1982।

सुबेदार के रैंक में

नायब सुबेदार बनारसी दास (जे० सी० 92004 एन०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार परवीन सिंह (जे० सी० 447 अक्स०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार मोहनंदर सिंह (जे० सी० 476 एम०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार अब्दुला खान (जे० सी० 475 एम०) 1 अप्रैल 1982।

कुमाऊं रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सुबेदार बनवारी लाल (जे० सी० 83835 एल०) 1 मई 1981।

नायब सुबेदार बनवारी राम (जे० सी० 83836 एन०) 1 जून 1981।

नायब सुबेदार करतार सिंह यादव (जे० सी० 83852 एल०) 10 अगस्त 1981।

नायब सुबेदार सत्याबीर सिंह (जे० सी० 84313 एफ०) 1 सितम्बर 1981।

नायब सुबेदार उमीद सिंह (जे० सी० 86518 पी०) 11 अक्टूबर 1981।

नायब सुबेदार राम चन्दर (जे० सी० 90726 एफ०) 1 फरवरी 1982।

नायब सुबेदार कन्हैया राम (जे० सी० 84312 वाई०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार शंकर लाल (जे० सी० 90211 एफ०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार लालजी राम (जे० सी० 92341 एच०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार शिवदान सिंह (जे० सी० 92927 वाई०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी० 92928 वाई०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार झब्बू सिंह (जे० सी० 97488 एच०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार सुबास चन्द्र (जे० सी० 97489 एल०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार अजीत सिंह (जे० सी० 99712 एच०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार भगवान सिंह (जे० सी० 103303 पी०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सुबेदार बनवारी लाल (जे० सी० 99715 डब्ल्यू०) 1 जून 1982।

नायब सुबेदार धीसा राम (जे० सी० 102108 एल०) 1 जून 1982।

नायब सुबेदार बचे सिंह (जे० सी० 103323 एच०) 17 अगस्त 1982।

नायब सुबेदार राम सिंह (जे० सी० 82833 एन०) 1 अक्टूबर 1982।

नायब सुबेदार जोहर सिंह (जे० सी० 82834 डब्ल्यू०) 1 अक्टूबर 1982।

नायब सुबेदार भानी राम (जे० सी० 81264 वाई०) 1 जुलाई 1981।

- नायब सूबेदार खडक सिंह (जे० सी० 78865 वाई०)
1 अगस्त 1981।
- नायब सूबेदार परमल चन्द (जे० सी० 82079 के०)
1 सितम्बर 1981।
- नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जे० सी० 82013 एफ०)
1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार रामेश्वर दास (जे० सी० 82014 के०)
1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार सतपाल (जे० सी० 82018 ए०)
1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार तारा चन्द (जे० सी० 66234 के०)
1 फरवरी 1982।
- नायब सूबेदार दिवान सिंह (जे० सी० 82080 एम०)
1 फरवरी 1982।
- नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जे० सी० 75047 एम०)
1 मार्च 1982।
- नायब सूबेदार शीश राम (जे० सी० 82090 डब्ल्यू०)
1 मार्च 1982।
- नायब सूबेदार विश्वनाथ सिंह (जे० सी० 83834 एच०)
1 मार्च 1982।
- नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा जोशी (जे० सी० 85242 एक्स०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार नयन सिंह कार्की (जे० सी० 68260 के०)
1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार केशभ दत्त जोशी (जे० सी० 82085 एल०)
1 फरवरी 1982।
- नायब सूबेदार मोहन नाथ (जे० सी० 83845 पी०)
1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार हीरा बल्लभ पाण्डे (जे० सी० 86029 के०)
1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार डोल सिंह (जे० सी० 89040 एन०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार पदम सिंह (जे० सी० 89041 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार तेज सिंह (जे० सी० 91329 पी०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार रूप सिंह (जे० सी० 92926 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार मान सिंह (जे० सी० 92348 एम०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार मोहन नाथ (जे० सी० 92349 पी०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी० 97483 के०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे० सी० 97484 एम०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार गुमान सिंह (जे० सी० 97485 पी०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सोबन सिंह बिष्ट (जे० सी० 92930 वाई०) 1 मई 1982।
- नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी० 92931 एफ०)
1 जून 1982।
- नायब सूबेदार धन सिंह (जे० सी० 103295 एफ०)
1 जून 1982।
- नायब सूबेदार दीवाना सिंह (जे० सी० 103296 के०)
1 जून 1982।
- नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जे० सी० 92932 के०)
1 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार हयात सिंह (जे० सी० 89429 एफ०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार देश राम यादव (जे० सी० 94808 ह०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जे० सी० 96102 एल०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार लाला राम (जे० सी० 97494 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार मतिरारवन सिंह (जे० सी० 83936 वाई०) 1 जून 1980।
- नायब सूबेदार राम सिंह मजीला (जे० सी० 75048 पी०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जे० सी० 77489 के०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार प्रभु नारायण सिंह (जे० सी० 94809 के०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार हीर राम आर्या (जे० सी० 77490 वाई०) 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी० 78468 ए०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी० 81259 एन०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार धन सिंह (जे० सी० 82835 वाई०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार रतजीत सिंह (जे० सी० 82836 एफ०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार हर सिंह (जे० सी० 91114 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सोन सिंह (जे० सी० 66243 एल०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार धर्मा नन्द (जे० सी० 83849 एल०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार भोला दत्त (जे० सी० 85112 पी०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 99704 के०)
1 अगस्त 1982।

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सी० सी० कोषि (जे० सी० 59109 एक्स०)
1 फरवरी 1982।

सूबेदार वी० के० विक्रमन (जे० सी० 44695 एन०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार पी० ए० सुरयनारायणन (जे० सी० 35542 एच०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार बालकृष्णन नायर के० एस० एम० (जे० सी० 43091 एच०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार के० नारायणन (जे० सी० 44683 वाई०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार बालकृष्णन नायर के० (जे० सी० 44093 ए०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार एस० मारिसामि (जे० सी० 48659 ए०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क एस० अरुणाचलम (जे० सी० 53578 के०)
1 अप्रैल 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सामुवेल तम्पान एस० एम० (जे० सी० 65323 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार परमेश्वरन पिल्ले शिवशंकरन नायर
(जे० सी० 65856 वाई०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नारायणन तिरुविक्रमन नायर (जे० सी० 66931 के०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार के० सी० अनन्दन (जे० सी० 72122 ए०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार अययम पेरुमाल ए० (जे० सी० 81741 पी०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नटराजन (जे० सी० 83153 ए०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रशेखरन नायर एन० (जे० सी० 86208 के०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार डब्लिंकृष्णन वी० (जे० सी० 87396 एच०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार तोनान्नि जनार्दन रावु (जे० सी० 91823 एल०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नानू वासुदेवन (जे० सी० 74849 के०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार श्रोमिनि दिवाकरन (जे० सी० 83721 ए०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जी० पी० श्रन्तोनिस्वामि (जे० सी० 84478 ए०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पी० वी० पुरुषोत्तमन (जे० सी० 84073 पी०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार शंकरन एजुत्तचचन (जे० सी० 86211 के०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मुत्तेया (जे० सी० 93374 ए०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार अन्नमारि त्याप्पन भाधवन (जे० सी० 97104 एच०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एन० भास्करन (जे० सी० 86532 एफ०)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एम० रामन पिल्लै (जे० सी० 90450 डब्ल्यू०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार ग्लेन्टटिय रामसामि (जे० सी० 91308 वाई०),
8 अप्रैल 1982।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क विक्रमन पिल्ले पी० एन० (जे० सी० 77046 एच०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पी० सी० रामदास (जे० सी० 79446 एन०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पी० जोसफ फर्नांडो जे० सी० 81187 पी०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क एस० चेल्लप्पा (जे० सी० 84076 एच०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क टी० वेन्कटेशन (जे० सी० 86256 के०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क जी० तन्नाप्पन नायर (जे० सी० 86916 डब्ल्यू०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क के० कुन्जिकृष्णन (जे० सी० 87839 वाई०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क वी० एम० एम० (जे० सी० 89462 वाई०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क वालिपरम्बिल अय्यापुत्ति मोहनन
(जे० सी० 89463 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क कुन्जिकृष्णन पी० वी० (जे० सी० 89464 के०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क वेलेकेस्सेरि पुल्लिसेरि श्रीधरन
(जे० सी० 90448 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार के चन्द्रशेखरन नायर (जे० सी० 66080 एच०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार तिरवु (जे० सी० 66081 एल०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एन० पी० मात्तू (जे० सी० 72121 एक्स०),
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार शंकु सुब्बेया (जे० सी० 66082 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मोहम्मद खराति (जे० सी० 83154 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पुत्तनवीटिल शशिधरन (जे० सी० 83158 वै०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार वै रामकृष्णन रेडि (जे० सी० 84084 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार वेलप्पन जे० (जे० सी० 84484 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार थू० एफ० अबुबकर (जे० सी० 84485 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सेन्वरेनाराज वेन्कटनारायणन (जे० सी० 84531 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार के० श्रीधरन नायर (जे० सी० 84532 एम०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार श्यामलन (जे० सी० 66083 डब्ल्यू०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एन० चिन्नसामि (जे० सी० 83155 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पी० आर० राघवन (जे० सी० 83156 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एन० जनार्दनन (जे० सी० 75147 एक्स०), 20 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार ए० अलगारसामि (जे० सी० 77459 एम०), 1 मई 1982।

नायब सूबेदार अडपा रामदास (जे० सी० 81473 डब्ल्यू०) 1 मई 1982।

नायब सूबेदार पी० अप्पाजि (जे० सी० 84074 एक्स०), 1 मई 1982।

नायब सूबेदार सी० के० गजेन्द्रन (जे० सी० 92422 एच०), 1 मई 1982।

नायब सूबेदार कुरियन पी० जी० (जे० सी० 76915 ए०), 1 जून 1982।

नायब सूबेदार पी० एच० तोमस (जे० सी० 92423 एल०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार के० एम० कुमारन नायर (जे० सी० 94215 पी०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार कात्तुकुठियिल वेलायुधन (जे० सी० 93988 एच०), 8 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार के० बालकृष्णन नायर (जे० सी० 92866 एम०), 4 सितम्बर 1982।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर क्लर्क के० रैंक में

सूबेदार क्लर्क जगजीत सिंह फरवाह (जे० सी० 63675 पी०), 1 सितम्बर 1982।

सूबेदार क्लर्क व्यक्तदास कानत (जे० सी० 64220 एल०) 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अणु जाधव (जे० सी० 52215 एन०) 1 जुलाई 1982।

सूबेदार पाडुरंग उडुगडे, एम० एम०, (जे० सी० 46305 वाई०), 1 जुलाई 1982।

सूबेदार हिरू सावंत (जे० सी० 47407 एफ०), 1 जुलाई 1982।

सूबेदार शिवराम जिजाराम किलेदार (जे० सी० 49297 डब्ल्यू०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार किसन गायकवाड (जे० सी० 64600 के०), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार विश्वनाथ नाईक (जे० सी० 44898 एक्स०), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क अन्नत प्रसाद पासी (जे० सी० 77453 एल०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क शंकर निमट (जे० सी० 83764 पी०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क रामचन्द्र निकम (जे० सी० 83772 एन०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क कृष्णा चिरमुरे (जे० सी० 84187 ए०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क एम० पी० कल्याण शेटी (जे० सी० 84738 एच०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क अनंतराव शेडगे (जे० सी० 91304 एच०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पी० के० दामोदरन नम्बीयार (जे० सी० 91305 एल०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क एन० बालकृष्णा पिलाई (जे० सी० 93367 के०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क गुरूनाथ जोशी (जे० सी० 96540 एन०) 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क ए० सम्मुअल (जे० सी० 97160 एफ०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क वामन धारगे (जे० सी० 97867 वाई०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पोवारविठोबा (जे० सी० 97869 के०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क राणे मनोहर (जे० सी० 101138 डब्ल्यू०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क जोशी श्रीपाद (जे० सी० 101139 वाई०), 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क शंकर कुलकर्णी (जे० सी० 101137 एन०), 1 अक्टूबर 1982।

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पिरभु सिंह (जे० सी० 18424 वाई०), 1 मार्च 1982।

सूबेदार बुधा बहादुर राय (जे० सी० 48724 पी०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार चतारू राम (जे० सी० 38346 एन०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार जगपाल सिंह (जे० सी० 17851 एच०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार आँकार सिंह (जे० सी० 44673 पी०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार फकीर सिंह (जे० सी० 39828 पी०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी० 46173 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार खुसी राम जखमौला (जे० सी० 60371 एम०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार कुलमान थापा (जे० सी० 58428 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार प्रेम बहादुर थापा (जे० सी० 54858 के०), 1 जून 1982।

सूबेदार फूल सिंह (जे० सी० 54016 वाई०), 1 जुलाई 1982।

सूबेदार शामराव भोसले (जे० सी० 44115 एन०), 1 अगस्त 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी० 62433 ए०), 1 अक्टूबर 1981।

नायब सूबेदार ठोंकल सिंह (जे० सी० 67147 एच०), 1 नवम्बर 1981।

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे० सी० 71868 के०), 1 सितम्बर 1981।

नायब सूबेदार शम्भु नाथ चौबे (जे० सी० 73999 एन०), 1 फरवरी 1982।

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा शर्मा (जे० सी० 72918 डब्ल्यू०), 1 जनवरी 1982।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जे० सी० 77068 एफ०), 10 जनवरी 1982।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी० 85263 वाई०), 21 जनवरी 1982।

नायब सूबेदार जगत सिंह (जे० सी० 71459 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राम कवर (जे० सी० 85822 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरी राम (जे० सी० 92876 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह नेगी (जे० सी० 84884 ए०), 1 जनवरी 1982।

नायब सूबेदार कंवर सिंह जग्गी (जे० सी० 86055 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रणपत सिंह (जे० सी० 83701 एम०), 1 मार्च 1982।

नायब सूबेदार बुध सिंह (जे० सी० 87845 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार प्राहलदासिंह (जे० सी० 90020 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार शिवबालक सिंह (जे० सी० 90101 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार परसनाथ सिंह (जे० सी० 91315 पी०), 1 जून 1982।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी० 87856 एफ०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार जंगरूप सिंह (जे० सी० 92906 एच०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी० 79864 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी० 80093 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार दुनी चन्द (जे० सी० 82066 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कर्ण सिंह (जे० सी० 83642 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार गोवर्धन सिंह, वीर चक्रा, (जे० सी० 83780 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कर्ण सिंह (जे० सी० 83781 पी०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार नर बहादुर गुरूंग (जे० सी० 79998 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जे० सी० 82117 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जे० सी० 81269 एक्स०), 1982।

नायब सूबेदार इन्द्र बहादुर प्रधान (जे० सी० 82859 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रीसाल सिंह (जे० सी० 86066 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी० 92434 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार भगत सिंह (जे० सी० 94779 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार बलराम सिंह (जे० सी० 76256 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार भगत सिंह (जे० सी० 84067 एफ०), 14 अप्रैल 1982।

- नायब सूबेदार शिवाराम पवार (जे० सी० 84153 एम),
1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार राम स्वरूप (जे० सी० 94830 एम०),
1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार स्वामी राम (जे० सी० 98750 एम०),
1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार गनपत सिंह (जे० सी० 98749 एक्स०),
1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार जगत सिंह (जे० सी० 90824 एफ०),
1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार रंगराव बजवाले (जे० सी० 93712 एम०),
1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार उदय सिंह (जे० सी० 104949 एम०),
31 मई 1982।
नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी० 82615 पी०),
1 अक्टूबर 1982।
नायब सूबेदार महिन्द्र सिंह (जे० सी० 86596 एम०),
5 अक्टूबर 1983।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

- नायब सूबेदार क्लर्क एम० के० पाप्पाजन (जे० सी० 100496 पी०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार क्लर्क रनजीत सिंह (जे० सी० 100490 एन०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार क्लर्क जय प्रकाश (जे० सी० 105824 एफ०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार क्लर्क ब्रह्म पाल सिंह (जे० सी० 102851 ए०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार क्लर्क गोविन्द राम शर्मा (जे० सी० 102852 एच०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार क्लर्क नन्दा बल्लभभट (जे० सी० 102853 एल०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार क्लर्क हरिहर शर्मा (जे० सी० 102854 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार के रैंक में

- हवलदार गनपत सिंह (सं० 2959387 एन० अब जे० सी०), 1 दिसम्बर 1981।
हवलदार राज कुमार (सं० 2960147 एच० अब जे० सी०), 1 फरवरी 1982।
हवलदार सुरेन्द्रपाल सिंह (सं० 2961108 डब्ल्यू० अब जे० सी०), 3 फरवरी 1982।
हवलदार कैलाशपती त्रिपाठी (सं० 2962477 ए० अब जे० सी०), 8 मार्च 1982।
हवलदार नारायण सिंह (सं० 2962074 ए० अब जे० सी०), 8 मार्च 1982।
हवलदार रविन्द्र कुमार (सं० 2962656 ए० अब जे० सी०), 8 मार्च 1982।

नागा रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार राजे सिंह रावत (जे० सी० 76251 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे० सी० 76252 ए०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार गोविन्द सिंह थाण्या (जे० सी० 78461 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार एलिमकबा आओ (जे० सी० 77043 पी०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार हरक सिंह (जे० सी० 83550 वाई०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार निलिआधारी माओ (जे० सी० 81738 पी०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार अमर बहादुर गुरंग (जे० सी० 86528 वाई०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार डाईली माओ (जे० सी० 74703 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार जवाहर सिंह नेगी (जे० सी० 87553 एन०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार एन० जी० एनगलिम चाऊ (जे० सी० 86529 एफ०), 1 अप्रैल 1982।
नायब सूबेदार साँदाम सिंह रावत, भी आर सी (जे० सी० 98645 डब्ल्यू०), 1 जून 1982।
नायब सूबेदार के दारथुग अनल (जे० सी० 94331 एक्स०), 1 जून 1982।

राजपूताना राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

- सूबेदार मोहम्मद यूसूफ (जे० सी० 35337 डब्ल्यू०), 1 जनवरी 1982।
सूबेदार औतार सिंह (जे० सी० 46128 के०), 1 जनवरी, 1982।
सूबेदार हरी पाल महलावत (जे० सी० 72543 एच०), 1 जनवरी, 1982।
सूबेदार रिछपाल सिंह (जे० सी० 35264 ए०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

- सूबेदार कर्कल रिसाल सिंह (जे० सी० 53295 ए०), 1 अप्रैल, 1982।

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार भरत सिंह (जे० सी० 79636 ए०), 1 जनवरी, 1982।
नायब सूबेदार बजरंग लाल (जे० सी० 92436 एच०), 1 जनवरी 1982।
नायब सूबेदार भगवत सिंह (जे० सी० 58300 एम०), 1 अप्रैल 1982।

- नायब सूबेदार बुद्ध पाल (जे० सी० 84778 एफ०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार ब्रह्म सिंह (जे० सी० 81171 के०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार दया राम (जे० सी० 81760 ए०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार जन्नर सिंह (जे० सी० 90018 पी०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार, भाम चन्द राम (जे० सी० 94851 एच०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जे० सी० 80020 वाई०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार देश राज (जे० सी० 87849 एज०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जे० सी० 97441 एक्स)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सम्पत सिंह (जे० सी० 87848 ए०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार मेद सिंह (जे० सी० 93722 डब्ल्यू०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार परताप सिंह (जे० सी० 91650 वाई०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सवाई सिंह (जे० सी० 87846 पी०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार नेगी चन्द (जे० सी० 97440 पी०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार दीप सिंह (जे० सी० 105289 एम०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार देवी सिंह (जे० सी० 103547 एच०),
20 जून, 1982।
- नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी० 84770 पी०),
1 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जे० सी० 92914 एफ०), 1 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार डेवा सिंह (जे० सी० 81761 एच०),
1 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार भंवर सिंह (जे० सी० 95279 एम०),
1 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार जगमाल सिंह (जे० सी० 91314 एम०),
17 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार भेर सिंह (जे० सी० 90017 एम०),
1 जुलाई 1981।
- नायब सूबेदार विश्वेश्वर सिंह (जे० सी० 90102 पी०), 1 नवम्बर 1981।
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी० 66061 एक्स०),
1 दिसम्बर, 1981।
- नायब सूबेदार राम निवाज सिंह (जे० सी० 71477 वाई०), 1 जनवरी, 1982।
- नायब सूबेदार दत्ता राम (जे० सी० 79092 डब्ल्यू०),
1 जनवरी, 1982।
- नायब सूबेदार मोहकम सिंह (जे० सी० 84759 डब्ल्यू०), 1 जनवरी 1982।
- नायब सूबेदार प्रभु सिंह (जे० सी० 84762 डब्ल्यू०),
1 फरवरी 1982।
- नायब सूबेदार धीसू सिंह (जे० सी० 92908 एन०),
1 फरवरी, 1982।
- नायब सूबेदार दरयाव सिंह (जे० सी० 75021 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जे० सी० 78574 वाई०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी० 86027 वाई०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार मांगे लाल (जे० सी० 92918 एक्स०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार ग्यान चन्द (जे० सी० 79632 के०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार गिरान्ड सिंह (जे० सी० 75023 एच०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार बीर सिंह (जे० सी० 92911 एन०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जे० सी० 81763 एन०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार अमी लाल (जे० सी० 81764 डब्ल्यू०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार देवी सिंह (जे० सी० 83669 एन०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार लाल चन्द (जे० सी० 83670 एक्स०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार उमराव सिंह राम (जे० सी० 80878 पी०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार मान सिंह (जे० सी० 80017 वाई०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार प्रभु दयाल (जे० सी० 85576 एम०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार रिध करन (जे० सी० 95602 डब्ल्यू०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार चन्दगी राम (जे० सी० 89159 एक्स०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार हयात मोहम्मद खाँ (जे० सी० 81753 के०), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार भवर सिंह (जे० सी० 96156 एम०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार चन्दर सिंह (जे० सी० 95608 एक्स०)
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी० 96161 के०), 1 अप्रैल, 1982।

- नायब सूबेदार हनुमानाराम (जे० सी० 96157 पी०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार जमन सिंह (जे० सी० 83671 ए०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार श्योपाल सिंह (जे० सी० 96163 एच०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार बलवान सिंह मलिक (जे० सी० 92912 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी० 99862 वाई०), 1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार लख सिंह (जे० सी० 97436 एम०),
27 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार घमबीर सिंह (जे० सी० 92920 पी०),
1 मई 1982।
- नायब सूबेदार हर नारायण (जे० सी० 96158 के०),
1 मई 1982।
- नायब सूबेदार शम्भू सिंह (जे० सी० 84761 एन०),
23 मई, 1982।
- नायब सूबेदार जीवन राम, एस० एम० (जे० सी० 90021 पी०), 1 जून, 1982।
- नायब सूबेदार बिशन सिंह (जे० सी० 79801 के०),
1 जुलाई 1982।
- नायब सूबेदार राम नारायण (जे० सी० 82586 एल०), 1 अगस्त 1982।
- नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जे० सी० 84766 एम०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी० 83684 एक्स०),
1 अप्रैल 1982।
- नायब सूबेदार सादूले खाँ (जे० सी० 83111 एफ०),
1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार विशाराम सिंह (जे० सी० 84729 वाई०)
1 जुलाई 1982।
- नायब सूबेदार राज नारायण सिंह (जे० सी० 95280 एफ०), 1 अगस्त 1982।
- तोपखाना रेजिमेंट
सूबेदार मेजर के रैंक में
- सूबेदार काबल सिंह (जे० सी० 60798 एच०), 1
जून 1982।
- सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी० 84284 एक्स०), 1
जुलाई 1982।
- सूबेदार अवतार सिंह रन्धावा (जे० सी० 50382 एल०),
1 जुलाई 1982।
- सूबेदार जगतार सिंह धीरसा (जे० सी० 50929 एच०), 1 जुलाई 1982।
- सूबेदार नथा सिंह (जे० सी० 53351 डब्ल्यू०),
1 अगस्त 1982।
- सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी० 56446 एफ०), 1
अगस्त 1982।
- सूबेदार नाजर सिंह (जे० सी० 56450 के०) 1
अगस्त 1982।
- सूबेदार आज्ञा सिंह (जे० सी० 56452 पी०), 1
अगस्त 1982।
- सूबेदार जरनेल सिंह (जे० सी० 56693 पी०), 1
अगस्त 1982।
- सूबेदार मोती राम (जे० सी० 45471 ए०), 1
अगस्त 1983।
- सूबेदार करम सिंह (जे० सी० 77921 ए०), 1 अगस्त
1982।
- सूबेदार जरनेल सिंह (जे० सी० 49866 वाई०), 1
अगस्त 1982।
- सूबेदार दर्शन सिंह पन्नालिया (जे० सी० 49583
एस०), 1 अगस्त 1982।
- सूबेदार भाग सिंह (जे० सी० 68185 एल०), 1
सितम्बर 1982।
- सूबेदार जय नारायण (जे० सी० 44288 एल०),
1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार ए० रविन्दर (जे० सी० 49939 ए०), 1
सितम्बर 1982।
- सूबेदार एम० के० पुवाईया (जे० सी० 53392 ए०),
1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार राम कवर (जे० सी० 47216 एच०), 1
सितम्बर 1982।
- सूबेदार राधिका प्रसाद त्रिपाठी (जे० सी० 48626
पी०), 1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार जित सिंह (जे० सी० 56935 एक्स०), 1
सितम्बर 1982।
- सूबेदार दिलबाग सिंह (जे० सी० 68194 एम०),
1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी० 53412 एच०), 1
सितम्बर 1982।
- सूबेदार रति राम एस० एम० (जे० सी० 45599
एल०), 1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार माधवन कुट्टी नायर के (जे० सी० 49938
एक्स०), 1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार थन्डी राम (जे० सी० 47598 एफ०), 1
सितम्बर 1982।
- सूबेदार बलबीर सिंह गेरवाल (जे० सी० 62874 डब्ल्यू०
1 सितम्बर 1982।
- सूबेदार मखन लाल (जे० सी० 47149 एम०), 1
अक्टूबर 1982।
- सूबेदार हनुवन्त सिंह (जे० सी० 47929 एक्स०),
1 अक्टूबर 1982।
- सूबेदार भीमराव जाधव (जे० सी० 45369 एक्स०),
1 अक्टूबर 1982।
- सूबेदार सी० पी० ई० उन्नी (जे० सी० 53400 एन०),
1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार अजित सिंह (जे० सी० 68625 एन०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार एम० शामराजु (जे० सी० 53407 एक्स०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार बलवन्त सिंह (जे० सी० 50381 एच०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार मेजर के रैक मे (एस० के० टि०)

सूबेदार वी० वी० रामचन्द्र पनिकर (जे० सी० 45284 एफ०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार के रैक मे

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जे० सी० 87071 पी०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरी सिंह रावत (जे० सी० 96223 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कैदार सिंह (जे० सी० 93815 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मोहर सिंह (जे० सी० 87742 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी० 84841 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार बाल कृष्ण मोरे (जे० सी० 89413 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार विठल मोरे (जे० सी० 91806 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार गगाधरन के० पी० (जे० सी० 95038 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पतिनचरु वीटिटल कृष्णन कुट्टी (जे० सी० 90156 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कामेश्वर तिवारी (जे० सी० 92363 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एम० ए० इग्नाषियस (जे० सी० 94025 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी० 98392 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कृष्ण गोपीनाथन नायर (जे० सी० 97050 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार गोविन्द राम (जे० सी० 100125 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी० 99800 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह सिधू (जे० सी० 97042 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नारायणन पी० (जे० सी० 96235 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार गोपालकृष्णन, वीरचक्र (जे० सी० 84283 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पुष्पेन वीटिटल श्रीधरन (जे० सी० 83899 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जी० सुब्बाराव (जे० सी० 92357 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार दिनेश्वर ओझा (जे० सी० 110093 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार आत्मा सिंह (जे० सी० 100845 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी० 101830 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कट्टीसेरिल कोचू पप्पू रवीन्द्रन (जे० सी० 106889 एफ०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जुगलाल सिंह यादव (जे० सी० 108222 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार भारत प्रसाद (जे० सी० 104138 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चेल्लियन एम० (जे० सी० 104557 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रोहतास सिंह चौहान (जे० सी० 108761 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार दौलत राम शर्मा (जे० सी० 109553 एम०), 29 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार हरफूल (जे० सी० 112186 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार प्रीतपाल सिंह धन्डा (जे० सी० 109598 एम०), 1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी० 108726 एम०), 3 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार परशुराम पाटिल (जे० सी० 90160 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मारुति कदम (जे० सी० 87757 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार अर्जुन राय (जे० सी० 94277 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मल्लप्पा गनिकोप (जे० सी० 91427 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चैन सिंह (जे० सी० 97041 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरी राम यादव (जे० सी० 98388 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सूरज सिंह (जे० सी० 100158 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार तुकाराम नायक (जे० सी० 100155 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार किरसन (जे० सी० 99571 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सोहन लाल (जे० सी० 90144 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चिरंजी लाल यादव (जे० सी० 106667 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राम कनवर (जे० सी० 105182 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राम चन्द्र अहलावत (जे० सी० 105204 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हकम सिंह (जे० सी० 110076 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरनाथ राम पाल (जे० सी० 109116 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जंग बहादुर सिंह (जे० सी० 110073 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार भानुदाम फदताने (जे० सी० 111936 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जयवन्त भीर (जे० सी० 110346 एम०) 11 जून 1982।

नायब सूबेदार रंग राव पाटिल (जे० सी० 112114 एम०), 13 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार राम लाभाया शर्मा (जे० सी० 101056 एन०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार तुमुला राजगोपाल राव (जे० सी० 109600 वाई०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार कृष्ण जगदाले (जे० सी० 108770 डब्ल्यू०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार दिनकर भोसले (जे० सी० 108747 एच०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी० 108714 एक्स०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी० 94273 एक्स०), 1 नवम्बर 1982।

कवचित कोर

रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी० 51730 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार सिरी राम (जे० सी० 69888 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार जम्बेल सिंह (जे० सी० 56473 के०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार गोपाल दास (जे० सी० 60348 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार जय करण (जे० सी० 56483 पी०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार बीर सिंह (जे० सी० 70269 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार करम सिंह परवाना (जे० सी० 52377 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार भजन लाल हरचन्द (जे० सी० 61996 एन०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार माधव सिंह (जे० सी० 56029 पी०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार फैझ मोहम्मद खान (जे० सी० 51346 एम०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार जंग बहादुर सिंह (जे० सी० 60349 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार दर्शन सिंह (जे० सी० 70276 के०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार मनी राम (जे० सी० 61918 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार बाबू सिंह (जे० सी० 47389 के०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार तेजा सिंह (जे० सी० 54778 एम०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार विशन सिंह (जे० सी० 63537 एन०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार सादा राम (जे० सी० 63551 ए०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार काश्मिर सिंह (जे० सी० 64603 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार सनपान सिंह (जे० सी० 46888 एम०), 1 अप्रैल 1982।

रिसालदार अजीत सिंह (जे० सी० 81202 वाई०), 1 मई 1982।

रिसालदार निरबल राम (जे० सी० 69910 वाई०), 1 जून 1982।

रिसालदार जागिर सिंह (जे० सी० 61567 एम०), 1 जुलाई 1982।

रिसालदार कुरी राम (जे० सी० 54760 डब्ल्यू०), 1 अगस्त 1982।

रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार धंवर सिंह (जे० सी० 78479 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार भगत सिंह (जे० सी० 79655 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार जोगिन्दर सिंह गिल (जे० सी० 79836 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार मोहिन्दर सिंह धालोवाल (जे० सी० 79656 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार हरदीप सिंह सन्धु (जे० सी० 79657 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार राजबीर सिंह (जे० सी० 79837 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार चैनो राम शर्मा (जे० सी० 83921 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार अमराव सिंह तेजा (जे० सी० 83922 वाई०), 1 अप्रैल 1 821

रिसेलदार मेजर के रैंक में

रिसेलदार मनधीर सिंह (जे० सी० 70792 एच०), 1 अप्रैल 1982।

रिसेलदार के रैंक में

नायब रिसेलदार अनग पाल सिंह (जे० सी० 79832 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार जय पाल सिंह (जे० सी० 78981 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार रघुनन्दन सिंह (जे० सी० 82478 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार बख्शीश सिंह (जे० सी० 82473 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार गुरदिलाल सिंह (जे० सी० 81426 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार गोबिन्दस्वामी रेड्डी सी० (जे० सी० 73525 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार रण सिंह (जे० सी० 81423 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार नन्हाकुसिंह (जे० सी० 82428 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार प्रहलाद सिंह (जे० सी० 84148 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार हुसेन खान (जे० सी० 90490 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार सरदारी लाल (जे० सी० 92319 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार सूरज भान (जे० सी० 95102 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार बछिन्त सिंह (जे० सी० 87826 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार विजय सिंह (जे० सी० 97122 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार चिन्नाथी अरुमुगम (जे० सी० 79189 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार इन्द्र पाल सिंह (जे० सी० 92396 एम०), 1 अप्रैल 1992।

नायब रिसेलदार ग्यान चन्दन (जे० सी० 83909 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार उदय सिंह चौहान (जे० सी० 92401 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार गुरदीप सिंह (जे० सी० 85476 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार हवा सिंह (जे० सी० 96661 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार गिरवर सिंह (जे० सी० 82165 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार यानन सिंह (जे० सी० 100930 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार खुशी राम (जे० सी० 92858 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार राम नरेश सिंह (जे० सी० 96636 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार रतन सिंह परमार (जे० सी० 82470 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार गौरी हरी खटाई (जे० सी० 90966 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार शमशेर बहादुर सिंह (जे० सी० 95511 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार विजय सिंह (जे० सी० 90116 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिसेलदार अर्जुन सिंह यादव (जे० सी० 95514 ए०), 1 मई 1982।

नायब रिसेलदार पदम सिंह (जे० सी० 91785 ए०), 1 जून 1982।

नायब रिसेलदार भाग सिंह (जे० सी० 94574 एच०), 1 जुलाई 1982।

नायब रिसेलदार चमन लाल (जे० सी० 92859 डब्ल्यू०), 1 जुलाई 1982।

नायब रिसेलदार सुख राज सिंह (जे० सी० 83926 पी०), 1 जुलाई 1982।

नायब रिसेलदार रावल सिंह (जे० सी० 90122 एम०), 1 जुलाई 1982।

नायब रिसेलदार काबल सिंह सन्धु (जे० सी० 95086 एम०), 1 जुलाई 1982।

नायब रिसेलदार गुरुदचरण सिंह (जे० सी० 100896 एफ०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिसेलदार बेग राज सिंह (जे० सी० 96656 के०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिसेलदार, सुचा सिंह (जे० सी० 92860 एल०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिसेलदार बनी सिंह (जे० सी० 100931 वाई०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिसेलदार सुमेर सिंह (जे० सी० 80924 वाई०), 1 सितम्बर 1982।

नायब रिसेलदार सन्ता सिंह (जे० सी० 95525 एम०), 1 सितम्बर 1982।

नायब रिसेलदार तेहल सिंह (जे० सी० 98306 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर 1982।

नायब रिसेलदार अजायब सिंह (जे० सी० 92328 वाई०), 9 सितम्बर 1982।

नायब रिसेलदार होशियार सिंह (जे० सी० 100943 एन०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब रिजालदार मरना राम घादव (जे० पी० 97125 वाई०), 8 अक्टूबर 1982।

नायब रिजालदार बग सिंह औलख (जे० सी० 94579 ए०), 1 नवम्बर 1982।

नायब रिजालदार अली अकबर (जे० सी० 8414 ए०), 1 जुलाई 1981।

नायब रिजालदार वी० भास्करन नायर (जे० सी० 82451 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार दलीप सिंह (जे० सी० 87715 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जसवन्त सिंह (जे० सी० 84037 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार बल राम (जे० सी० 85491 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हसीर सिंह (जे० सी० 84214 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सिरा राम (जे० सी० 73533 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार धुलाम सरवर खान (जे० सी० 77648 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार तरलोचन सिंह राणा (जे० सी० 72030 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सुरजीत सिंह (जे० सी० 85492 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जगदीश सिंह (जे० सी० 87483 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार दीप चन्द (जे० सी० 90488 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार ओम प्रकाश सिंह (जे० सी० 91773 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार महेन्द्र सिंह (जे० सी० 96633 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जगजीत सिंह (जे० सी० 80927 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार धर्म राजन मुनीसामी (जे० सी० 82471 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मकसूदन सिंह (जे० सी० 85490 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार महेन्द्र सिंह (जे० सी० 90120 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार ग्यान् चन्द शर्मा (जे० सी० 81427 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार भंवर सिंह (जे० सी० 95530 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार नेक सिंह, एस० एम० (जे० सी० 87807 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार बेंकटा सामी श्रीनिवासन (जे० सी० 84135 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राघवन रमेशन (जे० सी० 89739 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राम नाथ सिंह (जे० सी० 93809 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार देवपालन नायर (जे० सी० 95097 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जीत राम (जे० सी० 74758 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मांगे राम तक्षक (जे० सी० 82488 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार बेबी कुशियाकोस (जे० सी० 96648 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार करम चन्द (जे० सी० 96640 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार शाम सिंह (जे० सी० 82450 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार दर्शन सिंह रधावा (जे० सी० 96663 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सुरजीत सिंह (जे० सी० 97126 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार देवी दत्त (जे० सी० 101778 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सुरजीत सिंह (जे० सी० 101777 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मानसिंह (जे० सी० 97139 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी० 99622 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार नारीन्दर सिंह (जे० सी० 100950 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हरबन्स सिंह (जे० सी० 100952 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार गुग्दियान सिंह (जे० सी० 85496 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार देवी दत्त (जे० सी० 82492 ए०), 2 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मैधान * वर्मा (जे० सी० 85983 पी०), 3 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जीत बहादुर सिंह (जे० सी० 87708 ए०), 4 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राम चन्द्र सिंह (जे० सी० 90591 एक्स०), 5 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जगदीश सिंह (जे० सी० 93810 एम०), 6 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार अंकार सिंह पठानिया (जे० सी० 91387 बाई०), 4 मई 1982।

नायब रिजालदार धरमपाल सुहाग (जे० सी० 90497 एफ०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिजालदार अजीत सिंह वर्मा (जे० सी० 94573 ए०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिजालदार दिना नाथ (जे० सी० 92468 एक्स०), 1 दिसम्बर 1981।

नायब रिजालदार लाल चन्द वर्मा (जे० सी० 82449 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राज पाल सिंह वर्मा (जे० सी० 82167 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार माखन सिंह (जे० सी० 82177 एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार रणजीत सिंह (जे० सी० 81203 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राजिन्दर सिंह (जे० सी० 87482 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सुदागर सिंह (जे० सी० 85487 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार अमी चन्द (जे० सी० 73524 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार अजीत सिंह (जे० सी० 76233 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राम किशन (जे० सी० 82542 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हरी सिंह भाटी (जे० सी० 84211 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार गुरनाम सिंह (जे० सी० 85205 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सतपाल सिंह (जे० सी० 89089 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हंस राज सिंह (जे० सी० 90971 के०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मानिक राम (जे० सी० 93898 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार बचन सिंह (जे० सी० 78477 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार कयाम सिंह (जे० सी० 87477 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार दलीप सिंह (जे० सी० 87480 एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार छितर सिंह (जे० सी० 87716 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मलक सिंह (जे० सी० 82480 बाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सोहन सिंह (जे० सी० 84046 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हवा सिंह (जे० सी० 90123 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार महीपाल सिंह (जे० सी० 90857 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राजिन्दर सिंह (जे० सी० 94563 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार श्याम सिंह (जे० सी० 92402 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार परीतम सिंह (जे० सी० 90113 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जय सिंह (जे० सी० 91384 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार राज कंवर सिंह तिओतिया (जे० सी० 91386 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार अजायब सिंह (जे० सी० 95531 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार ठकन सिंह (जे० सी० 83920 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार पाटोल दत्त पांडूरंग (जे० सी० 82497 एम०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार ए० माणिकम (जे० सी० 83778 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मुन्डोली वेल्लुवा नारायणन (जे० सी० 87476 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हरी बक्श सिंह (जे० सी० 94565 एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार विन्ध्याचल राम (जे० सी० 86251 एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार जेरमी पैस बोक्केथूर (जे० सी० 92323 ए०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार मोहम्मद इफीर खान (जे० सी० 87806 एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार हरी चन्द (जे० सी० 94577 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार शिवनन्दन सिंह चौहान (जे० सी० 98324 बाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार गिरधारा सिंह (जे० सी० 95534 एन०), 1 मई 1982।

नायब रिजालदार हरपाल सिंह (जे० सी० 86504 पी०), 1 मई 1982।

नायब रिजालदार राम मोहन सिंह (जे० सी० 90125 डब्ल्यू०), 1 मई 1982।

- नायब रिसालदार चानन सिंह (जे० सी० 97131 एम०)-
1 जून, 1982 ।
- नायब रिसालदार मोहम्मद नसीम (जे० सी० 90494 एन०)-3 जून, 1982 ।
- नायब रिसालदार रणवीर सिंह (जे० सी० 76258 एफ०)-
-30 दिसम्बर, 1981 ।
- नायब रिसालदार दीन सिंह (जे० सी० 94012 एन०)-
1 जनवरी, 1982 ।
- नायब रिसालदार राम चन्द्र सिंह (जे० सी० 79842 के०)-
1 फरवरी, 1982 ।
- नायब रिसालदार श्रेकशदात्रण वडके विटोल करुणाकरन
(जे० सी० 78674 के०)-1 फरवरी, 1982 ।
- नायब रिसालदार जोध सिंह (जे० सी० 77879 एम०)-
1 मार्च, 1982 ।
- नायब रिसालदार दत्त सिंह (जे० सी० 82453 पी०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार नारायण सिंह (जे० सी० 78984 पी०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार रतीराम (जे० सी० 81431 के०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार थामा चाको चित्ताकाड (जे० सी०
78210 एम०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार अंगरेज सिंह (जे० सी० 78982 के०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार पाद्मे कोइलथ कुट्टी कृष्णन ताम्बयार (जे०
सी० 82472 ए०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार दलीप चन्द (जे० सी० 81208 ए०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार सुखपाल सिंह (जे० सी० 82175 एम०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार थेनाली मार्णिक्य राव (जे० सी०
82173 एफ०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार बशीर मोहम्मद (जे० सी० 82479
के०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार जगन सिंह (जे० सी० 84144 एल०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार शेर सिंह (जे० सी० 84217 एम०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार देव सिंह ब्रैदवान (जे० सी० 85469
एल०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार ययाथ आनन्दन (जे० सी० 86248
एल०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार शमशेर सिंह (जे० सी० 90485 एम०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार परमेश्वरन सोमार्णेश्वरन नायर (जे० सी०
89086 डब्ल्यू०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार भंवर सिंह (जे० सी० 95093 एव०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार हरचन्द सिंह धिल्लां (जे० सी० 86242
के०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार तिरथ राम डुडोवाल (जे० सी० 87805
एल०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार निहाल सिंह भादौरिया (जे० सी० 90124
एन०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार बलजिन्दर सिंह (जे० सी० 90858
एन०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जे० सी० 90114
के०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार गुरदीप सिंह (जे० सी० 91775 डब्ल्यू०)
-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार राम चन्द्र वीर चक्र (जे० सी० 92406
एल०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार गुरबचन सिंह (जे० सी० 90967-
-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार सुरजोत सिंह (जे० सी० 95099 के०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार के० ए० रामचन्द्रन (जे० सी० 95095
एन०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार उजाले सिंह (जे० सी० 91782 एम०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार महेन्द्र सिंह (जे० सी० 95094 एल०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार किशन लाल (जे० सी० 87825 वाई०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार रघुवीर सिंह (जे० सी० 95519 वाई०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार रणवीर सिंह (जे० सी० 90975 ए०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार जर्नैल सिंह (जे० सी० 95098 एफ०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार कल्याण सिंह (जे० सी० 95090 पी०)-
1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार दरशन सिंह देवल (जे० सी० 95518
डब्ल्यू०)-1 अप्रैल, 1982 ।
- नायब रिसालदार हरभजन सिंह (जे० सी० 95508 एम०)
-1 मई, 1982 ।
- नायब रिसालदार फूलदास (जे० सी० 78471 ए०)-
1 जनवरी, 1982 ।
- नायब रिसालदार कमला प्रसाद (जे० सी० 85497 एम०)
-1 फरवरी, 1982 ।
- नायब रिसालदार प्यारे लाल यादव (जे० सी० 78480
एफ०)-1 फरवरी 1982 ।

नायब रिसालदार मेहर सिंह (जे० सी० 82487 एच०)-
1 फरवरी, 1982।

नायब रिसालदार कामिष्कर सिंह (जे० सी० 80931पी०)-
1 मार्च, 1982।

नायब रिसालदार सन्त कुमार (जे० सी० 70248 एफ०)-
1 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार जहर सिंह (जे० सी० 78477 एफ०)-
1 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार गुरमेल सिंह (जे० सी० 78678 ए०)-
1 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार रतन सिंह (जे० सी० 92393 एक्स०)-
1 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार वरधाम सिंह गिल (जे० सी० 78869 पी०)-1 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार रणधीर सिंह (जे० सी० 78754 एफ०)-1 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार कालू सिंह (जे० सी०-81900 एफ),
17 जनवरी 1982।

नायब रिसालदार किशन सिंह (जे० सी०-76756 एन)
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार मेघ सिंह (जे० सी०-90753 एल)
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रण सिंह (जे० सी० 92320 एम),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार दर्शन सिंह (जे० सी० 77881 के),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जे० सी० 82495 एफ),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार हरपाल सिंह (जे० सी० 91777 एफ)
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार सनीर सिंह (जे० सी० 90974 एक्स),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार धाशी राम खाटकर (जे० सी० 84142 ए),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जे० सी० 79833 एच)
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार दशरथ सिंह (जे० सी० 82474 एल),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार राम सिंह (जे० सी०-83777 एम),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार बावा दिप्ता (जे० सी० 85470 ए),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार शंकर सिंह (जे० सी० 87479 एन),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार कपूर चन्द (जे० सी० 87803 ए),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार शेर सिंह (जे० सी० 87714 एफ),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार प्रीतम सिंह (जे० सी० 89382 एफ),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार करण सिंह (जे० सी० 91880 एफ),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार राज कुमार (जे० सी० 92394 एफ)
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार नन्द लाल (जे० सी० 91783 पी),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार जिले सिंह (जे० सी० 96639 के),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार पद्मनाभन मोगारथ (जे० सी० 90964 एन),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार अजायब सिंह (जे० सी० 84040 के),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार मोहिन्दर सिंह रन्धावा (जे० सी० 82483 के)
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार जसवन्त सिंह (जे० सी० 85210 पी),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार हरफूल सिंह धालीवाल (जे० सी०-85484 ए),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार ईन्द्र बक्ष सिंह (जे० सी०-91784 एक्स),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार दिनेश सिंह (जे० सी०-92403 एक्स),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-86250 एच),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार सुचा सिंह रन्धावा (जे० सी०-87704 एक्स),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार आंचल सिंह (जे० सी०-85475 वाई),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार सन्तोष सिंह (जे० सी०-90495 डबल्यू),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार रामेश्वर (जे० सी०-110195 वाई),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार मेहताव सिंह (जे० सी०-96658 पी),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार श्री राम (जे० सी०-98316 ए),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार गुमान सिंह (जे० सी०-99764 वाई),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार हरीचन्द (जे० सी०-100937 ए),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार काशी सिंह (जे० सी०-95510के),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार अमर सिंह (जे० सी०-91776 वाई),
1 अप्रैल 1982।

नायब रिसालदार बहादुर सिंह (जे० सी०-87485 एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अजीज़ूर रहमान (जे० सी०-87810 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार लक्ष्मण सिंह (जे० सी०-90965 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार दिवाण चन्द (जे० सी०-91779 एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार हवा सिंह (जे० सी०-94564 वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार भावानी सिंह शेखावत (जे० सी०-95515 एच), 1 अगस्त 1982 ।

नायब रिसालदार ग्यान सिंह (जे० सी०-74264 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-67434 एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार जोखू सिंह यादव (जे० सी०-70247 वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार उमराव सिंह (जे० सी०-73385 एल), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार रोशन लाल (जे० सी०-79831 एक्स) 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसाल प्रेम सिंह (जे० सी०-81433 पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार तेजपाल सिंह (जे० सी०-82498 पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार पी० के० अलगेसन (जे० सी०-84213 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार तेज सिंह नारूका (जे० सी०-70274 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार रणजीत सिंह (जे० सी०-81421 एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार ईश्वर दास (जे० सी०-80934 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार रतन सिंह चट्टा (जे० सी०-83919 वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब सूबेदार माधो सिंह (जे० सी०-77645 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मालम सिंह (जे० सी०-77646 एल), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार भूप सिंह (जे० सी०-81198 एन), अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार रत्न सिंह (जे० सी०-81429 एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अजमेर सिंह (जे० सी०-85472 एल), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार राजा सिंह चौहान (जे० सी०-85986 एच) 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार नागिना सिंह (जे० सी०-85931 एन), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार राम मिह (जे० सी०-87804 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार राम सकलसिंह (जे० सी०-87809 एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार हरंपाल सिंह (जे० सी०-89088 एफ) 01 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अमरपाल सिंह (जे० सी०-83928 ए), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार गुरमित सिंह (जे० सी०-85478 एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार हनुमान सिंह (जे० सी०-85988 एन), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार कलवन्त सिंह (जे० सी०-85989 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार धरम चन्द (जे० सी०-95088 एक्स), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अब्दुल हमीद खान (जे० सी०-95089 ए), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मज्जन्त सिंह (जे० सी०-97121 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार दीन सिंह (जे० सी०-95507 के), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार बालसाहेब पाटील (जे० सी०-92857 एल), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार शिव राज सिंह (जे० सी०-97147 एक्स), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार चरण सिंह (जे० सी०-91772 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार कदम सिंह (जे० सी०-90754 एन), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार शमी उल्लाह खान (जे० सी०-92397 पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार ईश्वर सिंह काडियान (जे० सी०-92863 वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जे० सी०-95521 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार जयपाल सिंह (जे० सी०-89385 पी), 1 जुलाई 1982 ।

नायब रिसालदार सेवा सिंह (जे० सी०-93813 ए), 1 जुलाई 1982 ।

नायब रिसालदार ब्रिजेन्द्र सिंह राणा (जे० सी०-79191 वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार गुरदियाल सिंह (जे० सी०-79839 के), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मुल चन्द (जे० सी०-78870 के),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार भगवान सिंह (जे० सी०-84138
एक्स), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार फतेह सिंह संगवान (जे० सी०-
81209 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार नरांजन सिंह (जे० सी०-82459
डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार यश करन सिंह (जे० सी०-84210
पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मनफुल सिंह (जे० सी०-84215
एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार जागिर सिंह (जे० सी०-87484
वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार भदन चन्द (जे० सी०-80926 के),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार गंगा बिशन (जे० सी०-81430
एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मेहताब सिंह (जे० सी०-82491
एल), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार करनेल सिंह (जे० सी०-85203
वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मुथु मन्नोल करुमाथील विजयन (जे०
सी०-90492 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार राज सिंह (जे० सी०-76754 एच),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार सरदार सिंह (जे० सी०-85207 पी),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार दया चन्द, एस० एम० (जे० सी०-
87828 एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार भीम सिंह (जे० सी०-90855
एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार राजपाल सिंह (जे० सी०-92321
पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मुराद अली (जे० सी०-82457 एल),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार जसवन्त सिंह (जे० सी०-86245
एक्स), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मोहिन्दर सिंह गुराय्या (जे० सी०-
85204 एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-85480
के), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार मलकियत सिंह लोबाना (जे० सी०-
86252 एन), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार निर्मल सिंह (जे० सी०-89082 ए),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार हरधन सिंह (जे० सी०-87711
एन), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार रिसाल सिंह (जे० सी०-90109
वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार पुथेन पुरायोल लक्ष्मणन (जे० सी०-
94235 एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार दिलबाघ सिंह (जे० सी०-85485
एच), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अमर सिंह (जे० सी०-90487 एक्स),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार हयात मोहम्मद (जे० सी०-86246
ए), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार यश पाल सिंह (जे० सी०-90972
एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार इन्दर सिंह (जे० सी०-98309 के),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार ओम परकाश (जे० सी०-97140
एन), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार कालू खान (जे० सी०-95517 ए),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार कुवन कोयोदान ऊथामन (जे० सी०-
91770 एक्स), 2 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार वी० देवराज (जे० सी०-92325
एल), 3 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार दास शैट्टी भास्करन (जे० सी०-85474
डब्ल्यू०), 4 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अब्दुल हमीद इसाहक (जे० सी०-94236
एल), 5 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अप्पुमथारा पन्जन कराप्पन (जे० सी०-
95103 एफ), 6 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अप्पेकट्टू विजया कुमारन (जे० सी०-
97141 डब्ल्यू), 7 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार रोहिताश सिंह (जे० सी०-93912
पी), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार परताप सिंह (जे० सी०-86501
एफ), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार श्रीनिवास पवार (जे० सी०-78883
एक्स), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार चैन सिंह (जे० सी०-78209 एक्स),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार जीत सिंह (जे० सी०-87488 पी),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार धरम पाल सिंह (जे० सी०-90969
एम), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार निरवैर सिंह (जे० सी०-87475
वाई), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार अजीत सिंह (जे० सी०-84140 पी),
1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिसालदार हरभूप सिंह सिधू (जे० सी०-85209
ए), 1 अप्रैल 1982 ।

नायब रिजालदार अजीत सिंह (जे० सी०-86498 एम)—
01 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सुन्दर सिंह वर्मा (जे० सी०-85985
पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार रघु कद (जे० सी०-85495
एच०)—01 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार रणजीत सिंह (जे० सी०-81428
के०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार राज बीर सिंह (जे० सी०-82496
के०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार शकूर खान (जे० सी०-60398
के०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार बिपीन विहागी वर्मा (जे० सी०-
87808 वाई०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार मधुकर घाडगे (जे० सी०-63563
पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार अनगड सिंह सेनगर (जे० सी०-
9021 ए०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार राम चन्दर यादव (जे० सी०-74650
एच०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार उम्मेद सिंह (जे० सी०-75036
ए०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार सूरत सिंह (जे० सी०-83924 के०)—
01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार अमर चन्द मैनी (जे० सी०-84038
एम०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार चुनी लाल (जे० सी०-87706
एच०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार विक्रम सिंह सन्धू (जे० सी०-89381
वाई०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार बलराज सिंह (जे० सी०-90752
एच०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार राम चन्दर (जे० सी०-93897
वाई०)—01 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार सम्पूरन सिंह (जे० सी०-90115
एम०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार दिदार सिंह (जे० सी०-93899
के०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार भूपेन्द्र सिंह (जे० सी०-96634
एल०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार रामपाल सिंह (जे० सी०-93811
पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार गुरुबचन सिंह (जे० सी०-95533
एल०)—01 अप्रैल 1982।

नायब रिजालदार अनन्त राम (जे० सी०-78208
पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार रक्षपाल सिंह (जे० सी०-87710
एल०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार रणधीर सिंह (जे० सी०-90489
एच०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार गुरुबचन सिंह (जे० सी०-85465
पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-90859
एक्स०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार ज़रनेल सिंह (जे० सी०-95083
वाई०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार प्रहलाद सिंह (जे० सी०-84141
एक्स०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार नारायण सिंह (जे० सी०-79840
एम०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार शिव करण (जे० सी०-82170
एन०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार जसवन्त सिंह (जे० सी०-95523
एफ०)—01 मई, 1982।

नायब रिजालदार सदाशिवन पिल्लै परमेश्वरन पिल्लै
(जे० सी०-99788 एच०)—17 जुलाई, 1982।

नायब रिजालदार श्रीमंत गायकवाड (जे० सी०-
95522 वाई०)—16 अगस्त, 1982।

रिजालदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब रिजालदार क्लर्क काश्मिर सिंह (जे० सी०-
87017 एफ०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क हरब्रन्स सिंह (जे० सी०-
87811 वाई०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क महाराज सिंह (जे० सी०-
87812 एफ०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क अनन्त मोरे (जे० सी०-87814
एम०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क सुरेंद्र सिंह (जे० सी०-87815
पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क मोहम्मद फारुक (जे० सी०-
87816 एक्स०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क मर्तुबान सिंह (जे० सी०-
87818 एच०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क हरशं चन्द्र (जे० सी०-87819
एल०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क गणेश्वर सिंह (जे० सी०-
90498 के०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क एम० बालाकृष्ण मेनन
(जे० सी०-90861 पी०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क केहर सिंह (जे० सी०-90970
एफ०)—01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क विद्या प्रकाश (जे० सी०-94017 के०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क धर्मपाल सिंह शिशोदिया (जे० सी०-94240 एन०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क रणबीर सिंह रावत (जे० सी०-87813 के०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क हरभजन सिंह (जे० सी०-87718 एक्स०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क बलवन्त सिंह (जे० सी०-90499 एम०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क जगदीश लाल (जे० सी०-94241 डब्ल्यू०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क गुरबचन सिंह (जे० सी०-94237 एन०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क गुरदीप सिंह (जे० सी०-95104 के०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क हरबन्म सिंह (जे० सी०-95526 पी०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क प्रितम सिंह (जे० सी०-95536 वाई०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क रूपचन्द्र सिंह (जे० सी०-95537 एफ०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क लखवन्त सिंह (जे० सी०-95538 के०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क रामा नन्द सिंह (जे० सी०-96669 एन०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क पलविन्दर सिंह (जे० सी०-97143 एफ०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क करम चन्द कटोच (जे० सी०-97144 के०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क चरण सिंह (जे० सी०-97145 पी०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क डी० देवा ईरक्कम (जे० सी०-98327 एम०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क मेकला पेडा रोसैया (जे० सी०-98329 पी०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क रमेश लाल शर्मा (जे० सी०-104115 ए०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क शिव राम सिंह (जे० सी०-100966 पी०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क रूप सिंह पठामिया (जे० सी०-100967 एक्स०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क हुकम सिंह (जे० सी०-100968 ए०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क राम किशन ढाडवाल (जे० सी०-100969 एच०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार क्लर्क पारम नाथ सिंह (जे० सी०-100914 वाई०)--01 जुलाई, 1982।

रिसालदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब रिसालदार एस० के० टी० प्यारा सिंह (जे० सी०-82486 ए०)--01 मार्च, 1982।

नायब रिसालदार एम० के० टी० हजारा सिंह (जे० सी०-85477 के०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार एस० के० टी० ए० जगन्नाथन (जे० सी०-88875 डब्ल्यू०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार एस० के० टी० खजान सिंह (जे० सी०-88876 वाई०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार एस० के० टी० सूरत सिंह (जे० सी०-90756 वाई०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार एस० के० टी० सुखदेव सिंह (जे० सी०-92407 एन०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार एम० के० टी० मुनिर मिया (जे० सी०-85527 एक्स०)--01 अप्रैल, 1982।

नायब रिसालदार एस० के० टी० कल्लेपल्ली राजा राव (जे० सी०-95528 ए०)--01 अप्रैल, 1982।

कोर आफ इंजीनियरर्स

बगाल इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क राम प्रकाश (जे० सी०-43759 एफ०)--1 जनवरी 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जे० सी०-83807 वाई०)--1 जून, 1982।

नायब सूबेदार रेवा धर (जे० सी०-84509 पी०)--1 जून, 1982।

नायब सूबेदार सिधेश्वर सिंह (जे० सी०-89848 वाई०)--1 जून, 1982।

नायब सूबेदार नागेन्द्र सिंह (जे० सी०-98373 एफ०)--1 जून 1982।

नायब सूबेदार घनश्याम ओली (जे० सी०-99539 के०)--1 जून 1982।

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जे० सी०-99001 एच०)--1 जून, 1982।

नायब सूबेदार अरि चन्द (जे० सी०-99006 एफ०)--1 जून, 1982।

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी०-94956 एम०)--1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार खिमा नन्द (जे० सी०-96193 ए०)--1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार पान सिंह अधिकारी (जे० सी०-82399 एम०)--1 जनवरी, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क अवतार सिंह (जे० सी०-82505 ए०)—1 जून, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क गुरमेज सिंह (जे० सी०-82298 वाई०)—1 जून, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क चिन्ता मणि भट्ट (जे० सी०-64891 पी०)—1 जून, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क अमर सिंह (जे० सी०-78395 वाई०)—1 जून, 1982।

सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार एस० के० टी० सीता राम सिंह (जे० सी०-108998 एम०)—1 जून, 1982।

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार अर्जन सिंह (जे० सी०-43744 वाई०)—1 जून, 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जे० सी०-80860 वाई०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार सरूप सिंह पाल (जे० सी०-93109 के०)—1 जुलाई, 1982।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार निखतर सिंह (जे० सी०-68462 एल०)—1 जून, 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी० जी०) के रैंक में

नायब सूबेदार यश पाल (जे० सी०-87003 एफ०)—1 जुलाई, 1982।

सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार मुहर सिंह दोहारे (जे० सी०-95184 एम०)—1 जुलाई, 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-82508 एन०)—1 जुलाई, 1982।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार रामचन्द्रा दलवी (जे० सी०-87685 के०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार सत्या पाल (जे० सी०-90548 के०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-92473 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जे० सी०-94008 एच०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार मलुक सिंह (जे० सी०-93180 एक्स०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार वासुदेव पवार (जे० सी०-94492 ए०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार नेपाल शर्मा (जे० सी०-95185 पी०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-94503 एफ०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश आजाद (जे० सी०-94504 के०)—1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार बालकृष्णा सावंत (जे० सी०-95197 के०)—1 जनवरी, 1983।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार लाल चन्द (जे० सी०-84130 एल०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार अजीत कुमार (जे० सी०-86353 एफ०)—1 जुलाई, 1982।

सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार रमाकांत मिश्रा (जे० सी०-96603 एल०)—1 जुलाई, 1982।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार दरबारा सिंह (जे० सी०-89148 एल०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार हरी रंजन गुप्ता (जे० सी०-47683 के०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार शंकर सकपाल (जे० सी०-90411 के०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-93892 ए०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार गनपती रतमाले (जे० सी०-93887 पी०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार शाम सुन्दर राने (जे० सी०-92474 वाई०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार अब्दुल मजीद (जे० सी०-89441 एच०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जे० सी०-89442 एल०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-89443 एन०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार सदाशिव शींदे (जे० सी०-89449 पी०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार गुलवंत सिंह (जे० सी०-92465 एक्स०)—1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार अनंत शिंदे (जे० सी०-87684 पी०),
1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार मुस्ताक अहमद (जे० सी०-75940 एम०),
1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार श्रीधर सुर्वे (जे० सी०-86218 एन०),
1 जुलाई 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-67965 डब्ल्यू०),
1 जुलाई 1982।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-92477 एम०),
1 जुलाई 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार महमूद अली भाटोटिया (जे० सी०-88867
एक्स०), 1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार खरैती लाल शर्मा (जे० सी०-90477-
एन०), 1 जुलाई 1982।

कोर आफ इजीनियर्स

मद्रास इजीनियर ग्रुप

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रगास्वामी सातारामन (जे० सी० 80023-
एम०), 01 अगस्त 1982।

एम० ई० एस० मिनट्री केंडर

(सूबेदार के रैंक में)

नायब सूबेदार पारापट्टू सेमूल जाहन (जे० सी०-
76561-एच०), 01 जुलाई 1980।

नायब सूबेदार मेलाम्पा टेन्गी (जे० सी०-62844-वाई०)
01 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पी० आर० मुभाष (जे० सी०-65827-
के०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अरावा मालीकरजुना (जे० सी०-65111-
एल०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार बाबू कोराह (जे० सी०-65113 डब्ल्यू०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार पुथीरीकल दामोदरन (जे० सी०-65026-
एच०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार कलारीकलायेलीयल गोविन्दन मोहन लाल
(जे० सी०-65790-एन०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार चलागुम्बुला वेन्कटा सूबाराव (जे० सी०-
65028 एन०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा सिंह रावत (जे० सी०-66373-
एन०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश त्रिवेदी (जे० सी०-66379-
पी०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार आत्मा मिह (जे० सी०-69686-एक्स०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार चरन सिंह दिल्लीन (जे० सी०-69683-
के०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार कृष्णा पिल्ले के० (जे० सी०-69685-पी०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार बिकरम सिंह (जे० सी०-69688-एच०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मन्जीत सिंह (जे० सी०-69707-एच०),
01 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जे० सी०-74891-एच०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार काराकनाल कृष्णा पानीकर दामोदरन
पिल्ले (जे० सी०-74930-डब्ल्यू०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार साधू सिंह (जे० सी०-74899-पी०), 01
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार कुमारा पिल्ले आन्नदा पदमानाभन नायर
(जे० सी०-74913 डब्ल्यू०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मुरेशा चन्द (जे० सी०-74162-ए०), 01
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अवतार सिंह मरान (जे० सी०-76149-
पी०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अमरीक मिह थिन्ड (जे० सी०-74173-
एम०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार बालाकृष्णा नायर (जे० सी०-76355-
वाई०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार चीरान कुसुमियल देवासिया जोसेफ (जे०
सी०-74-528-एक्स०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार नेलीकल कृष्णन नायर वामू नायर (जे०
सी०-76559-एल०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार विजय देश पान्डे (जे० सी०-76368-
डब्ल्यू०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जे० सी०-81327-डब्ल्यू०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार सुकरमजीत सिंह (जे० सी०-80819-एच०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मथीलाकाथ अब्दुल हाममा (जे० सी०-
79133-पी०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-79249-एल०),
01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार हरी सिंह जग्गी (जे० सी०-74522-एल०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मुखनेन सिंह सिधू (जे० सी०-49241-के०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार करमला व्रीड प्रमेश्वरन मध्यावन पिल्ले (जे० सी०-49364-डब्ल्यू), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मीर अफजल हुसैन (जे० सी०-54103-एम०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार नामेश्वरा राव मन्डानाप्प (जे० सी०-52-630-पी०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार तबोन चन्द्रा लोहानी (जे० सी०-53307-एम०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-52330-एन०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मनाथानाथ कुन्हावी राजन (जे० सी०-54-154-ए०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार आईनूर मल्लाइह (जे० सी०-54055-एफ०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अमं बोपाना कलाणा (जे० सी०-540-81-वाई०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जे० सी०-54366-एन०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार चरन दास (जे० सी०-54219-एच०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मुखदणत सिंह धावीवाल (जे० सी०-55935-ए०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार हस राज (जे० सी०-63670-डब्ल्यू०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार थीमयाह (जे० सी०-57545-डब्ल्यू०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार कालीगल कुमारन (जे० सी०-57552-एम०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जे० सी०-61123-एच०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार राजेन्द्रा प्रसाद डोमल (जे० सी०-61124-एल०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मरवन सिंह मान (जे० सी०-61129-ए०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार नाल्लू शिवारामाय (जे० सी०-62232-एफ०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अष्टयूत लक्ष्मनराव कुलकर्णी (जे० सी०-62840-एच०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार गुरगेल सिंह बंच (जे० सी०-64932-एन०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मोहम्मद अमीन खान (जे० सी०-649-33-डब्ल्यू०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार नन्द लाल (जे० सी०-64945-एल०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार वेद प्रकाश सीचाच (जे० सी०-64953-के०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा गेयरेला (जे० सी०-64968-एम०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अलावसी पटगी (जे० सी०-68347-एल०) 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मूल चन्द्रा (जे० सी०-64975-एन०); 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार रंजीत सिंह मथोडा (जे० सी०-64977-एन०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार नोरमन डेविड कलेरेन्म (जे० सी०-65646-वाई०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार कन्डादाय चेनाप्पा (जे० सी०-65647-पी०), 01 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मोहम्मद युसुफ (जे० सी०-65033-आई०), 01 सितम्बर 1982।

कार आक सिगनल

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-70300-वाई०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मुन्ना लाल (जे० सी०-71091-वाई०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मेजर (ग्री०पी०साईपर) के रैंक में

सूबेदार पारस राम (जे० सी०-49717-एल०), 1 नवम्बर 1981।

सूबेदार क० थम्पी (जे० सी०-52086-वाई०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार पी० वासू (जे० सी०-52087-एफ०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार अश्वराम नाम्बयर (जे० सी०-53245-एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार दरबारा सिंह माड (जे० सी०-60227-एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार कामता प्रसाद सिंह (जे० सी०-62188-एच०), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार मेजर (एफ० आक० एस०) के रैंक में

सूबेदार दाना राम (जे० सी०-52103-एन०), 1 मई 1982।

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार नाराइन दास (जे० सी०-71086-एन०), 1 मई 1982।

सूबेदार हरसेम सिंह (जे० सी०-71159-पी०), 1 जुलाई 1982।

सूबेदार श्रीधरा पनीकर सी०के० (जे०सी०-73768-एक्स), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार श्री० सुब्रामनियन (जे०सी०-73778-एफ), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार मेजर (वाई० आफ एस०) के रैंक में

सूबेदार कुन्ज बिहारी (जे०सी०-56102-एच), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार मेजर (जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार रामजी दाम (जे०सी०-73774-एल), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार इकबाल सिंह (जे०सी०-73775-एन), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार बलदेव राज (जे०सी०-74053-एन), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार मेजर (एफ० आफ एस०) के रैंक में

सूबेदार सन्तोष सिंह परमार (जे०सी०-52109-पी), 1 मई 1982।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार चरन सिंह सीमर (जे०सी०-83289-के), 1 फरवरी 1982।

नायब सूबेदार त्रिभुवन किशोर सक्सेना (जे०सी०-85151-एन), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार ई०श्रीधरन नायर (जे०सी०-85166-डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार धनी राम शर्मा (जे०सी०-84554-एफ), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार ब्रह्मादुर सिंह (जे०सी०-84560-पी), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे०सी०-87087-ए), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार द्रया राम फाण्डे (जे०सी०-87775-वाई), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नन्दन सिंह भकुनी (जे०सी०-88949-ए), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जे०सी०-93233-एन), 1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्रा तिवारी (जे०सी०-89118-एन), 1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जे०सी०-88953-एच), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार (एफ० आफ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार रतन चन्द (जे०सी०-77420-ए), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रविन्दर पाल राना (जे०सी०-82750-एच) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रामधारी (जे०सी०-82751-एल), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार बकिम चन्द्रा सिन्हा (जे०सी०-94914-ए), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार (वाई० आफ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार ईश्वर दाम (जे०सी०-93496-के), 1 जनवरी 1983।

सूबेदार (ओ० पी० साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार गुरवचन सिंह (जे०सी०-76024-एक्स), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार (जे० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार भीम राज पवार (जे०सी०-82665-ए), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार आर० चन्द्रन (जे०सी०-83269-डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सन्ध्या दास मिनहाम (जे०सी०-84557-पी), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रघवीर मिह (जे०सी०-84559-ए), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मतपाल (जे०सी०-88957-वाई), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार साभाजी देशमाने (जे०सी०-88977-एम), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एन० जोय [कृटी एन्टोनी (जे०सी०-90766-एच), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार कलम सिंह रावत (जे०सी०-932207-के), 15 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार दया राम (जे०सी०-93221-डब्ल्यू), 1 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद (जे०सी०-93222-वाई), 1 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार राम प्रसाद (जे०सी०-93231-ए), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार (वाई० आफ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रिथ्वी सिंह (जे०सी०-70367-एक्स), 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार (एफ० आफ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार एम०पी० श्रीधरन नायर (जे०सी०-79627-वाई), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार श्रीचन्द्र सिंह (जे०सी०-82746-ए), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मद्रास गण गुरुवर्गिया (जे०सी० - 89456-एल). 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार (ओ०पी० साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार डेनियल कोशी (जे०सी०-83320-एल) 1 अप्रैल 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार गुरुनाथ राव (जे०सी०-74112 पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार बख्तावर सिंह बैम (जे०सी०-95216 के०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार प्रगुनाथ कुमार (जे०सी०-95217-एम०), 1 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कालारिकल (जे०सी०-95218-पी०), 3 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार बाबू राम (जे०सी०-95219-एकम०), 6 दिसम्बर 1982।

सूबेदार (एस०के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार एस० अप्पभो (जे०सी०-98039-ए०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार धरम दव पाडे (जे०सी०-98040-पी०), 1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रप्रकाश दरबाल (जे० सी०-102630-एन०), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार सुबी सिंह (जे०सी०-87091-एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार गरनायक (जे० सी० 93219-वाई), 1 नवम्बर 1982।

सूबेदार (वाई०आफएस०) के रैंक में

नायब सूबेदार गोपालन कार्तिकेयन (जे०सी०-90273-एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

सूबेदार (ओ०पी० साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे०सी०-85672-एफ०), 1 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार राम प्रवेश राम (जे०पी०-95215-ए०) 1 सितम्बर 1982।

सूबेदार (एम०के०टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार दत्तात्रया पोल (जे०सी०-98038-एकस०), 1 सितम्बर, 1982।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार करम सिंह (जे०सी०-85140-एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राज गिरहि सिंह (जे०सी०-87132-एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे०सी०-87106-ए०), अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सुरेश आनन्द (जे०सी०-87143-एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार जय सिंह (जे०सी०-88942-डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार इरगल पी०जे० (जे०सी०-88968-एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जे०सी०-88970-एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे०सी०-90770-एल०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार धरम सिंह पिगलिया (जे०सी०-90782-ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मगन सिंह (जे०सी०-90263-एकस०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे०सी०-90783-एच०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हंस राज (जे०सी०-90784-एल०), 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार पी० सी० लोनप्पन (जे०सी०-90266-एल०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह (जे०सी०-90786-डब्ल्यू०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार वद्री सिंह (जे०सी०-90787-वाई०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार भीम बहादुर राम (जे०सी०-90788-एफ०) 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार कृष्णन चित्रप्पन (जे०सी०-90789-के०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार लजकर सिंह (जे०सी०-90790-वाई०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार करन सिंह (जे०सी०-90791-एफ०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार वचन सिंह (जे०सी०-93205-वाई०), 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार वरिगम ए०जे० (जे०सी०-90268-डब्ल्यू०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अनला गोपाना रेडी (जे०सी०-93213-एकम०), 1 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार चमेल सिंह (जे०सी०-93214-ए०), नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार सरजीत सिंह मनकोटिया (जे०सी०-93220-एन०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राम लखन सिंह (जे०सी०-90269-वाई०), 1 नवम्बर, 1982

नायब सूबेदार अब्दुल रहमान (जे०सी०-93224-के०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जे०सी०-93227-एक्स०) 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार के०ओ० कुरियन (जे०सी०-93229-एच०) 1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार रघुनाथ पाटिल (जे०सी०-93230-एक्स०) 1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार महा सिंह वर्मा (जे०सी०-93234-एन०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हरी शंकर सिंह (जे०सी०-87130-डब्ल्यू०) 1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार पी०सी० भास्करन नायर (जे०सी०-87097-के०), 1 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार (वाई० आर० एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार केवल क्रिशन (जे०सी०-82759-एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रा दत्त मैनाली (जे०सी०-77431-एम०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार गोमती प्रमाद सिंह (जे०सी०-85659-एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सत्यभान पाठक (जे०सी०-90797-एच०) 1 मई 1982।

नायब सूबेदार प्रेम राज कौशिक (जे०सी०-90798-एल०), 1 जून 1982।

नायब सूबेदार यशवन्त घोरपाडे (जे०सी०-90274 के०) 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह ढाका (जे०सी०-90276-पी०) 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार (एफ० आर० एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार चद्रिका पान्ड (जे० सी०-74425 वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-79623-एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार महादेव (जे०सी०-79624-एल०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार मुनिन्द्र प्रमाद मिश्रा (जे०सी०-71815-एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार दीदार सिंह (जे०सी०-82752-वाई०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राम गोपाल शर्मा (जे०सी०-85517-ए०), 1 अप्रैल 1982।

3-434 GI/83

नायब सूबेदार मदन सिंह (जे०सी०-85633-एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार प्रीतम नाथ राय (जे०सी०-87112-एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कुमारन अरेदथ जे०सी०-87785-एल०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जे०सी०-90802-एच०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार काम्बले उमाजी राघोबा (जे०सी०-90805-एक्स०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार राज किशन खन्ना (जे०सी०-85645-एक्स०), 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार दिनेश्वर मिश्रा दिनेश (जे०सी०-90800-एक्स०), 1 दिसम्बर 1982।

सूबेदार (ओ०पी० माईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार गोबिन्दा (जे०सी०-74118-डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार शेखर चन्द्र जैन (जे०सी०-79600-एफ०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार चंचल सिंह (जे०सी०-79608-एन०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कमला साहेब सिरहाटी (जे०सी०-85182-एन०), 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार अजीत कुमार घोष (जे०सी०-85183-डब्ल्यू०), 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार केवल क्रिशन शर्मा (जे०सी०-85670-डब्ल्यू०), 1 अक्टूबर 1982।

सूबेदार (क्लर्क जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार राम गोपाल त्रिपाठी (जे०सी०-87147-के०) 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह चीमा (जे०सी०-89452-पी०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार इमान्युल वारपा (जे०सी०-90271-डब्ल्यू०), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पापादिहल जनार्थनन पिल्लै रविन्द्रन नाथन पिल्लै (जे०सी०-93482-के०), 1 जून 1982।

नायब सूबेदार हरिश चन्दर वर्मा (जे०सी०-93484-पी०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार अवधेश उपाध्याय (जे०सी०-94952-डब्ल्यू०), 1 सितम्बर, 1982।

सूबेदार (ओ०पी०) (स्पेशल) के रैंक में
 नायब सूबेदार रघुपाल मिह (जे०सी०-74127-एन०),
 1 अप्रैल 1982।

एस०के० राय, अवर सचिव

सं० 166, दिनांक 2 जनवरी 1984 --राष्ट्रपति,
 निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कोर

यांत्रिक परिवहन

सूबेदार मेजर के रैंक में (धर्म शिक्षक)

सूबेदार मेजर (पंडित) विद्याप्रकाश शर्मा (जे०सी०-
 11605-एफ०), 01 मई 1983।

सूबेदार मेजर (पंडित) दया राम (जे०सी०-14614-
 एन०), 1 मई 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शहजादा सिंह (जे०सी०-78043-एफ०), 5
 जून 1983।

सूबेदार झाबर सिंह (जे०सी०-78045-एम०), 1 जुलाई
 1983।

सूबेदार गोविंद कुलकर्णी (जे०सी०-78048-ए०), 1
 अगस्त 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार व्ही गोविंद राव (जे०सी०-9685-एन०)
 6 मई 1983।

नायब सूबेदार विधि चन्द्र (जे०सी०-96846-डब्ल्यू०),
 26 मई 1983।

नायब सूबेदार वेद प्रकाश शर्मा (जे०सी०-96847-वाई०)
 1 जून 1983।

नायब सूबेदार नेक राम (जे०सी०-96848-एफ०),
 1 जून 1983।

नायब सूबेदार अब्दुल रेहमान (जे०सी०-96849-के०),
 1 जून 1983।

नायब सूबेदार महा राम (जे०सी०-96850-वाई०)
 5 जून 1983।

नायब सूबेदार रघुराज सिंह त्यागी (जे०सी०-96851-
 एफ०), 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार चंचल राम (जे०सी०-96852-के०),
 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे०सी०-96853-एम०),
 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार हीरा पाण्डे (जे०सी०-98125-एल०),
 16 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार राधाकृपण कृषेर (जे०सी०-98126-एन०),
 24 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार उजाला सिंह (जे०सी०-98127-डब्ल्यू०),
 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार हनीमान मिह (जे०सी०-98094-डब्ल्यू०),
 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार केशव प्रसाद माह (जे०सी०-92140-के०),
 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार नागर सिंह (जे०सी०-92141-एम०),
 01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जे०सी०-92142-पी०),
 23 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार कडुबा सावले (जे०सी०-92144-ए०),
 23 अगस्त 1983।

सेना सेवा कोर

स्पलाई

पकके सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक के रैंक में)

सूबेदार मुदरादी अछूथा कामथ (जे०सी०-111261-एच०),
 30 जुलाई 1983।

सूबेदार कुनुमुल रामाकृष्णन नायर (जे०सी०-111262-
 एल०), 1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार किशन सिंह (जे०सी०-111263-एन०), 9
 अक्टूबर 1983।

पकके सूबेदार क्लर्क नामान्य ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी के
 रैंक में

सूबेदार दुर्गा प्रमाद साह (जे०सी०-99965-एक्स०),
 8 अक्टूबर 1983।

श्रीमती बी० नामेश्वरी, अवर सचिव

सं० 167, दिनांक 4 जनवरी 1984 --राष्ट्रपति,
 निम्नलिखित अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित तिथियों
 में अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना सेवा की
 कमीशन त्यागने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित थल सेना

स्थाई कमीशन

1. कप्तान ए० के० अहलुवालिया (आई०सी०-27148
 एन०), ई०एम ई०—22 अक्टूबर 80 (अपराहन)

2. कप्तान संजय गुप्ता (आई०सो०-27737वाई०), 26
जून 81 (अपराहन)

सुलता महमूद ले० कर्नल

सहायक सैनिक सचिव-7

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1983।

सं०ए०-22012/2/83 स्था० 1(198)।—राष्ट्रपति,

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-1 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 से अगले आदेशों तक उसी सेवा के प्रवरण ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

सर्वश्री

1. के०आर० नटराजन

2. बाबू लाल

3. एस०एस० जाटव

2. राष्ट्रपति, उपर्युक्त अधिकारियों को उक्त अवधियों के लिए रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में दिनांक 31-12-1983 से उप वित्तीय सलाहकार भी सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-22013/2/82-स्था०।—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय, सेवा रक्षा मंत्रालय काडर के अनुभाग अधिकारी श्री पी०एन० नर्यारि को रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 (अपराह्न) से अगले आदेश तक के लिए डेस्क अधिकारी नियुक्त करते हैं।

बी०के० दत्त

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th January 1984

No. 144, dated 22nd December 1983.—The President is pleased to appoint the following Selection Grade 'C' Officers of CSSS, Min of Def cadre to the tempy vacancies in Grade 'B' of the service on ad-hoc basis in the Ministry for the further period from 1st Dec 1983 to 16th Dec 1983 and against long-term vacancies in absence of Select List Officers wef 17th Dec 1983, until further orders :—

1. Shri U N Talwar
2. Shri N P Jaitley
3. Shri C S Venkateswaran
4. Shri V Parthasarthy

No. 145, dated 29th December 1983.—Consequent on his inclusion in the Select List of Grade 'B' of CSSS for the year 1982 on the basis of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 1982, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash, Grade 'C' Stenographer of CSSS cadre of Min of Def in Grade 'B' of the Services in the Ministry wef 26th Dec 1983 (FN), until further orders.

2. The abovementioned appointment of Shri Om Prakash will be subject to the decision of Civil Writ Petition No. 284 of 1975 pending in the Delhi High Court.

L N MEHTA, Under Secy.

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 146, dated 11th October 1983.—The President is pleased to appoint Shri Dwarka Prasad, Permanent Asstt Offg Asstt Civilian Staff Officer to the grade of Asstt Civilian Staff Officer (Group 'B'—Gazetted) in a substantive capacity, in the Armed Forces Headquarters Civil Services wef

01st Mar 1982 and assign him position *above* Shri T R Anand and *below* Shri Har Prasad.

No. 147, dated 2nd January 1984.—Having attained the age of superannuation Sh A N Kohli, Permt CSO/Offg SCSSO, retired from service wef 31st Dec 1983 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Jan 1984 (F/N).

DULI CHANDRA, Up Mukhya Prashasan Adhikari

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 148, dated 31st December 1983.—The President is pleased to make the following appointment :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Shri Ikkal Singh to be tempy Scientist 'C' in Instruments Research & Development Establishment, Dehra Dun on probn for a period of 2 years wef 06th Oct 1983 (FN).

Shri Daya Kant Shrivastava to be tempy Scientist 'C' in Instruments Research & Development Estt, Dehra Dun on probn for a period of 2 years wef 06th Oct 1983 (FN).

Dr Ramaprasad R Panyam to be tempy Scientist 'C' (Ad-hoc) in Defence Research & Development Laboratory, Hyderabad for a period of one year waf 19th Sep 1983 (FN).

No. 149, dated 31st December 1983.—The President is pleased to make the following promotion :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Shri M DEVANATHAN, Scientist 'B', Defence Bio-Engineering and Electro Medical Laboratory, Bangalore to be offg Scientist 'C' in the same Establishment wef 01st July 1982 (FN).

Shri S C SHRIMALI, Scientist 'B', Resident Technical Office, Nasik to be offg Scientist 'C' in the same establishment wef 01st July 1982 (FN).

M C SCARIA, Asstt Director (Pers)

"NATIONAL CADET CORPS"

No. 150, dated 30th December 1983.—The undermentioned is granted the honorary rank of Colonel in the NCC and is appointed as Honorary Colonel Commandant NCC for the period of his appointment as Vice-Chancellor of Amravati University, Amravati.

Dr Kashirao Govindrao Deshmukh, Amaravati University, Vidarbha Mahavidyalaya Campus, Amravati—04th Aug 1983.

J K GODRA, Dy Secy (Trg & Cer)

JOINT CIPHER BUREAU

No. 151, dated 31st December 1983.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri Rai Mohan Das, System Security Officer, to be offg Senior System Security Officer Grade II (Technical) (Group 'A' Gazetted) in JCB, Min of Def, wef 26th Nov 1983, against existing vacancy, until further orders.

(DGAFMS)

No. 152, dated 4th January 1984.—On attaining the age of superannuation viz 58 years on 31st Dec 1983, Shri V S Bansal, Civilian Staff Officer retired from service wef 31st Dec 1983 (AN) and transferred to pension establishment wef 1st Jan 1984 (FN).

S P MAHESHWARI, Dy CAO

DIRECTORATE GENERAL OF INSPECTION

No. 153, dated 3rd January 1984.—On attaining the age of 58 years on 30th Dec 1983, Shri J P JAIN, Senior Civilian Staff Officer retired from service wef 31st Dec 1983 (AN) and transferred to pension establishment wef 1st Jan 1984.

R D SHARMA, Dy CAO

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 154, dated 5th January 1984.—The undermentioned officers relinquished the appointment wef the date shown :—

Shri D T BHAMBAL, tempy Administrative Officer (Pmt UDC), Controllerate of Inspection (Ammunition), Kirkee retired from service—31st Jan 1983 (AN).

Shri V B NEDUNGADI, tempy JSO (Permt) Foreman, Inspectorate of Armaments, Chandrapur retired from service—31st July 1982 (AN).

Shri THOMAS MATHEW, tempy Administrative Officer (Permt-OS-II), Controllerate of Inspection (Ammunition), Kirkee, expired on 25th Sep 1982.

Shri B P CHATTERJEE, tempy JSO (Permt Chief D' Man), Inspectorate of Small Arms, Ichapur, retired from service—28th Feb 1982 (AN).

Shri N L KRISHNAMURTHY, tempy SSO-II (Permt Foreman), Inspectorate of Armaments, Khamaria expired on 30th Jan 1981.

K G GUPTA, Under Secy.

No. 155, dated 9th January 1984.—The President is pleased to appoint the following permanent Farms Officer to be offg Dy Asstt Director of Military Farms in the Military Farms Department until further orders, wef the date shown against his name :—

Shri Chet Ram (MEID 5016)—08th Jun 1983.

The officer will be on probn for a period of two years.

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

No. 156, dated 9th January 1984.—The President is pleased to appoint Shri Nalini Ranjan Pal, tempy Lecturer in a quasi-permt capacity in the post of Lecturer wef 29th Nov 1982 in the Corps of Electrical and Mechanical Engineers.

R D RAJVANSHI, Under Secy.

ARMY HEADQUARTERS

(GS BRANCH)

No. 157, dated 3rd January 1984.—On attaining the age of superannuation, Shri C P MALHOTRA, Principal Research Officer retired from Govt Service wef 31st Dec 1983 (AN) and transferred to Pension Establishment wef 1st Jan 1984 (FN).

No. 158, dated 5th January 1984.—The undermentioned officers on attaining the age of superannuation retired from Govt service wef 31st Dec 1983 (AN) and transferred to Pension Establishment wef 1st Jan 1984 :—

1. Shri G P Garg, SCISO, SD Dte
2. Shri Pritam Singh, ACSO GS/MT Dte.

No. 159, dated 3rd January 1984.—The President is pleased to make the following appointments :—

ARMY HEADQUARTERS

(EINC'S BRANCH)

Shri A Rama Krishna Rao, Pt Asstt CAO's Office to be offg ACSO wef 19th Dec 1983 in the AFHQ Civil Service until further orders.

S P MAHESHWARI, Up Mukhya Prashasan Adhikari

MILITARY ENGINEER SERVICES

No. 160, dated 9th January 1984.—The President is pleased to appoint Shri PAULRAJ JAISINGH as a tempy Barrack Stores Officer wef 10th June 1983 (Forenoon). He will be on probn for a period of two years.

No. 161, dated 6th January 1984.—The undermentioned officers resigned from service wef the date indicated against their names :—

MES-141070 Shri Santanu Kumar Satpathy AEE (Pt), EE (Ty)—30th Apr 1983 (FN).

MES-154212 Shri A N SHARMA CASO (Ty)—31st May 1983 (AN).

R D RAJVANSHI, Under Secy.

No. 162, dated 9th November 1983.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under Army Instructions 75/78 as amended vide Army Instructions 14/79 :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Q/Sub Major (on probn)

(Mis) MRINALINI SEN, MB, BS. (MS-10872W), AMC, 29th May 1982, with seniority from 8th Sep 1974 (which includes 6 years 28 days antedate for previous full pay commissioned service which will not count for gratuity) except in the rank of Q/Sub Major for which it will reckon wef 8th Sep 1980, for pay and allowances.

(Min of Def Notn No. 57 dated 4th Nov 1982 published on 8th Jan 1983 in as far it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt/Capt (on probn)

MANOJ SETHI, MB, BS. (MS-11107P) (75297B), AMC, 21st May 1982.

To be Capt (on probn)

KHYATI BHUSON DFB, MB, BS. (MS-11055K), AMC, 09th May 1983.

ANIL SHARMA, MB, BS, (MS-11085F), AMC, 01st July 1983, with notional seniority wef 25th June 1983 which will not count for pay and allces.

ATUL KAPILA, MB, BS, (MS-11086K), AMC, 01st July 1983, with notional seniority wef 25th June 1983 which will not count for purposes of pay and allces.

NARAYAN SREENIWAS GUDI, MB, BS, (MS-11089 X), AMC, 09th July 1983.

ASHWANI KUMAR KUKREJA, MB, BS, (MS-11097 W), AMC, 30th July 1983, with notional seniority wef 25th June 1983 which will not count for purposes of pay and allces.

To be Lieut (on probn)

GIRIRAJ SINGH RANAWAT, MB, BS, (MS-11053Y), AMC, 01st Jan 1983.

BIJENDRA KUMAR JAIN, MB, BS, (MS-11070Y), AMC, 25th June 1983.

DEVENDRA PRAKASH SRIVASTAVA, MB, BS, (MS-11071F), AMC, 25th June 1983.

ARUN KUMAR JAIN, MB, BS, (MS-11072K), AMC, 26th June 1983, with notional seniority wef 25th June 1983 which will not count for purposes of pay and allces.

M PRADEEP NAMBIAR, MB, BS, (MS-11066W), AMC, 27th June 1983.

ALOK RANJAN SINHA, MB, BS, (MS-11067X), AMC, 27th June 1983.

KAGGARE SHIVALINGAH PARMESH, MB, BS, (MS-11078L), 29th July 1983, with notional seniority wef 25th June 1983 which will not count for purposes of pay and allces.

KULDEEP KUMAR KAUL, MB, BS, (MS-11075K), AMC, 03rd July 1983.

INDER PAL ARORA, MB, BS, (MS-11076A), AMC, 16th July 1983, with notional seniority wef 25th June 1983 which will not count for purposes of pay and allces.

V K SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 163, dated 24th December 1983.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBN)

To be 2/Lts

The undermentioned are granted Short Service Commission (on probn) for a period of 5 years wef 12th Mar 1983 under the provisions of Special Army Instruction 11 of 64 as amended. Their Short Service Commission (on probn) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period :—

Gurrula Reuben Mokshanandam (SS 31317W) and Mohinder Singh NEGI (SS 31321Y) Inf, Ramesh N (SS 31326X), Signals, Virendra Kumar TYAGI (SS 31329L) EME, Amarjit Singh (SS 31338M) and Narender Kumar (SS 31339P) Inf, Rajeshwar Singh (SS 31341M) EME, Fernandes Gerald John (SS 31345H) Mech Inf, Kuljinder Singh (SS 31348W) Inf, Balwinder Singh VIRK (SS 31353F) Mech Inf, Kuldip Singh CHHIKARA (SS 31357X) Inf, Mahajan Dilip Kumar Jagannath (SS 31376T) ASC, Ashok Kumar Singh (SS 31384F), Jang Sher Singh CHAHAL (SS 31389A) and Satender Singh PUNDIR (SS 31393H) Mech Inf, Raj Kumar SHARMA (SS 31397Y) ASC, Vinod Balam NAIR (SS 31404K) Signals, Som Kumar RAWAT (SS 31406P), Anil RAINA (SS 31409H) and Ved Pal Singh (SS 31412H) Inf, Brijender Parsad (SS 31430L) EME and Inder Pal Singh (SS 31432W) ASC.

SUBHASH CHANDER, Lt Col
Sahayak Sainik Sachiv-8B/AMS-8B

No. 164, dated 12th December 1983.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent on completion of the probationary period :—

*REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION*

Lt S D RAN (NTS-16399M) AMC (Non-Tech), 28th Mar 1980.

SHORT SERVICE COMMISSION

Major O P SHRIVASTAVA (MS-10905W), AMC, 19th July 1982.

Capt V K K VEERAAIAH, (MS-10753A) AMC, 30th Sep 1981.

Capt V VISWANATH, (MS-10783X), AMC, 15th Feb 1983.

Capt G KAMALAPURKAR, (MS-10796P), AMC, 17th Feb 1982.

Capt O P SINGH (MS-10802X), AMC, 20th Feb 1982.

Capt S S CHHABRA (MS-10843P), AMC, 16th Apr 1982.

Capt K CHAMAN, (MS-10851A), AMC, 19th Apr 1982.

Capt P S. POKHARIA, (MS-10855W), AMC, 26th Apr 1982.

Capt (Mrs) RITA DAPNAI (MS-10862M), AMC, 12th May 1982.

Capt K B GUPTA (MS-10885N), AMC, 05th June 1982.

Capt T S AHLUWALIA, (MS-10714F), AMC, 21st June 1981.

Lieut (now Capt) (Miss) MEETA SINGH (MS-10733 M), AMC, 15th Sep 1981.

Lieut (now Capt) (Miss) R K GILL (MS-10656Y) AMC, 05th Apr 1982.

Lieut P CHAKRAVARTY (MS-30732K), AMC, 15th Sep 1981.

Surg Sub Lt A BHATIA (MS-10928X) (75287F), AMC, 22nd Aug 1982.

V K SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 165, dated 9th January 1984.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Infantry

1 GR

To be Sub Maj

Sub Makan Sing Gurung (JC-53917Y), 1st Apr 1982.

To be Sub Maj (Clerk)

Sub/Cik Datta Traya Potekar (JC-59607K), 1st June 1982.

To be Sub Maj

Sub Magan Singh Khatri (JC-45084L), 1st Jan 1982.

To be Sub

Nb Sub Harke Bahadur Thapa (JC-81606F), 1st Jan 1982.

Nb Sub Gan Bahadur Gurung (JC-93323M), 1st Feb 1982.

Nb Sub Durga Bahadur Rana (JC-93324P), 1st Mar 1982.

4 GR

To be Subedar Major

Sub Jum Bahadur Gurung (JC-56143M), 1st Oct 1983.

To be Subedar

Nb. Sub Birthi Bahadur Thapa (JC-91893K), 1st Apr 1982.

Nb Sub Chandra Bahadur Thapa (JC-89503X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bhuwan Singh Gurung (JC-88216F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chandra Bahadur Rana (JC-89497P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chandramani Gurung (JC-91153P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bhim Bahadur Gurung (JC-92777N), 1st Apr 1982.

*The Grenadiers
 To be Sub Maj*

Sub Himmat Khan (JC-48965P), 01st Apr 1982.
 Sub Parbhat Chand Verma (JC-47863M), 01st Apr 1982.
 Sub Man Sinh (JC-63717W), 01st Apr 1982.
 Sub Kartar Chand (JC-72124L), 01st Apr 1982.
 Sub Bnanwroo Khan (JC-27716H), 01st Apr 1982.
 Sub Jahoor Khan (JC-45986A), 01st Apr 1982.
 Sub Kishen Singh (JC-37646H), 01st Jun 1982.
 Sub Mohd Yasin (JC-61535K), 01st Jun 1982.

To be Sub Maj Clk

Sub Clk Bhoop Singh Dhull (JC-77630A), 01st Jul 1982.

To be Sub Maj

Sub Sujan Singh (JC-35935W), 01st Apr 1982.
 Sub Jay Singh (JC-61558L), 01st Aug 1982.
 Sub Padam Nabh (JC-41930W), 01st Oct 1982.
 Sub Ratan Singh (JC-64025N), 01st Oct 1982.

To be Sub

Nb Sub Ram Chander (JC-22619L), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Mehar Chand (JC-90251H), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Balbir Singh (JC-24458M), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Jai Narain (JC-68296H), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Bikramajeet (JC-82633X), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Behram Singh (JC-68297L), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Umed Khan (JC-83749A), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Devendra Pratap Singh (JC-83386F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Daryao Singh (JC-94359X), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Nathu Singh (JC-99511K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Makrand Singh (JC-102207N), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Raghubir Singh (JC-101899F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Sattar Khan Kayam Khani (JC-83748X), 01st Jun 1982.
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-83387K), 01st Jun 1982.
 Nb Sub Daya Nand (JC-83675W), 01st Jun 1982.
 Nb Sub Unas Ali (JC-83688N), 01st Jul 1982.
 Nb Sub Malkhan Pal (JC-99092X), 01st Jul 1982.
 Nb Sub Nobat Ram (JC-97109F), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Om Parkash (JC-93400W), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Hussain Khan (JC-77072K), 01st May 1981.
 Nb Sub Kalyan Singh Shekhawat (JC-93373X), 01st Nov 1981.
 Nb Sub Riyasat Ali (JC-78876L), 01st Dec 1981.
 Nb Sub Bhagat Ram (JC-93399M), 01st Dec 1981.
 Nb Sub Amba Lal (JC-77440N), 01st Jan 1982.
 Nb Sub Pritam Singh (JC-80033W), 01st Jan 1982.
 Nb Sub Pitamber Singh (JC-85970X), 01st Jan 1982.

Nb Sub Balwan Singh (JC-84069M), 01st Feb 1982.
 Nb Sub Ranbir Singh (JC-85971A), 01st Feb 1982.
 Nb Sub Siri Ram (JC-73982A), 01st Mar 1982.
 Nb Sub Panna Singh (JC-93401Y), 01st Mar 1982.
 Nb Sub Wajeed Khan (JC-66650N), 01st Oct 1981.
 Nb Sub Samdar Khan (JC-72546W), 01st Jan 1982.
 Nb Sub Maheshdan Singh (JC-69952L), 01st Oct 1981.
 Nb Sub Rup Singh (JC-93708K), 01st Nov 1981.
 Nb Sub Devi Singh (JC-79703A), 01st Dec 1981.
 Nb Sub Harphool Singh (JC-80788N), 20th Dec 1981.
 Nb Sub Sanwal Ram (JC-79705L), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Netarpal (JC-82630K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Onkar Singh (JC-84068K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Mool Chand (JC-84457K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Nandlal Singh (JC-83692W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Tribhovan (JC-83693Y), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Sukhbir Singh (JC-83677Y), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Kishan Lal (JC-84103F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Jagat Ram (JC-84464A), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Karan Singh Toonwar (JC-86539L), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Inder Singh (JC-86540A), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Padam Singh (JC-93711K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Kamlesh Singh (JC-98862M), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Narain Singh (JC-99512M), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Kishan Singh (JC-83690L), 06th Apr 1982.
 Nb Sub Badri Narain (JC-84488K), 30th Apr 1982.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Ram Singh (JC-97116X), 01st Apr 1982.

To be Sub

Nb Sub Chander Singh (JC-83382L), 01st Oct 1981.
 Nb Sub Dharam Singh (JC-98652M), 24th Feb 1982.
 Nb Sub Karam Chand (JC-90250A), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Jagdish Ram (JC-82610W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Ishwer Singh Panwar (JC-84101W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Dhup Singh (JC-83678K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Rattan Chand (JC-84463X), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Chander (JC-90254W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Piar Chand (JC-91803X), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Bare Singh (JC-94207W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Tarseem Lal (JC-94352N), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Mangat Ram Kashyap (JC-94357M), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Kuldip Singh (JC-92895F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Mohan Khan (JC-67569N), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Satbir Singh (JC-82628H), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Tara Chand (JC-86935F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Ridhi Chand (JC-96549H), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Dharamvir Singh (JC-95263F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Zile Singh (JC-94358P), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Shakti Chand (JC-84096W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Janak Ram (JC-100201N), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Sham Singh (JC-102930P), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Puran Singh (JC-99289N), 01st Apr 1982.

Nb Sub Salem Khan (JC-69955Y), 01st Apr 1982.

Nb Sub Bharat Singh (JC-85859N), 01st Jun 1982.

To be Sub (Cik)

Nb Sub (Cik) Jagan Nath (JC-85972H), 24th Feb 1982.

To be Sub

Nb Sub Virpal Singh (JC-77626X), 01st Apr 1982.

Nb Sub Sheo Ratan Singh (JC-81178W), 01st Apr 1982.

Nb Sub Murad Khan (JC-84093H), 01st Apr 1982.

Nb Sub Jai Hind Singh (JC-98867L), 01st Apr 1982.

Nb Sub Prem Chand (JC-90253N), 17th May 1982.

Nb Sub Amir Singh (JC-86535P), 01st Aug 1982.

Nb Sub Tara Chand (JC-86536X), 01st Aug 1982.

Nb Sub Bhagwan Bux Singh (JC-91309F), 01st Aug 1982.

Nb Sub Bhup Singh (JC-90255Y), 01st Sep 1982.

Nb Sub Khushal Singh (JC-93709M), 01st Sep 1982.

To be Sub Cik

Nb Sub Cik Jaswant Singh (JC-100204F), 01st Jul 1982.

To be Sub

Nb Sub Kishan Lal (JC-83384W), 01st Apr 1982.

Nb Sub Nafe Singh (JC-82365P), 01st Apr 1982.

Nb Sub Khurshid Ali (JC-94867N), 01st Apr 1982.

Nb Sub Hari Singh (JC-96545M), 01st Apr 1982.

Nb Sub Risal Singh Suhag (JC-94205L), 01st Apr 1982.

Nb Sub Vijay Singh (JC 82606N), 01st Apr 1982.

Nb Sub Parvez Chand (JC-99287H), 01st Apr 1982.

Nb Sub Jaipal Singh (JC-81553N), 01st Apr 1982.

Nb Sub Jai Lal (JC-98865A) 01st June 1982 .

To be Sub Cik

Nb Sub Cik Ran Singh Gulia (JC-86938P), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Sawai Singh (JC-89044K), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Raj Singh (JC-89465M), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Dhannu Ram (JC-97117A), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Maha Singh Jatain (JC-90257K), 01st Apr 1982.

Ab Sub Cik Darva Singh (JC-90258M), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Shri Ram Yadava (JC-90259P), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Ram Dass (JC-90260K), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Jeeir Singh (JC-97118H), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Devindar Paul Bhaskar (JC-98657L), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Amar Singh (JC-98658N), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Hoshiar Singh (JC-84071K), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Asha Ram Yadav (JC-98659W), 01st Apr 1982.

Nb Sub Cik Sheo Nath Singh (JC-99290H), 01st Apr 1982.

J&K LI

To be Sub Majors

Sub Devi Dass Sharma (JC-257L), 1st Apr 1982.

Sub Ghulam Haider (JC-223X), 1st Apr 1982.

Sub Basant Singh (JC-277Y), 1st Apr 1982.

Sub Nizam Din (JC-260L), 1st May 1982.

Sub Janak Singh (JC-282K), 1st Sep 1982.

Sub Ali Mohd Shah (JC-262W), 1st Sep 1982.

Sub Mohd Hanif (JC-298P), 1st Jun 1982.

To be Sub

Nb Sub Mohinder Singh (JC-92000X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Noordin Khan (JC-92020L), 1st Apr 1982.

Nb Sub Mohd Anwar Lone (JC-92022N), 1st Apr 1982.

Nb Sub Jagpal Singh (JC-452H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Wakil Dass (JC-91978A), 1st Apr 1982.

Nb Sub Krishan Chand (JC-92013P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Pream Singh (JC-92018N), 1st Jun 1982.

Nb Sub Ram Krishan (No. 9072975L), 1st Jun 1982.

Nb Sub Munshi Ram (No. 9972808P), 1st Jun 1982.

Nb Sub Des Raj (JC-91998N), 1st Jun 1982.

Nb Sub Swaran Singh (No. 9074681W), 1st Jun 1982.

Nb Sub Ali Sofi (JC-458L), 1st Apr 1982.

Nb Sub Fateh Sher (JC-459M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Prem Nath (JC-92006Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Rattan Singh (JC-460F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Om Parkash (JC-472W), 1st Apr 1982.

Nb Sub Gurcharan Dass (JC-473Y), 1st May 1982.

Nb Sub Thakar Dass (JC-478F), 1st Jun 1982.

Nb Sub Jai Krishan (JC-92002H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sita Ram (JC-480P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Khushal Chand (JC-481X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Kushal Singh (JC-483H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Jagdish Singh (JC-456Y), 1st Apr 1982.

To be Sub (Clerks)

Nb Sub (Cik) Kashmir Singh (JC-91963X), 1st Apr 1982.

Nb Sub (Cik) Chaman Lal Bhat (JC-91980X), 1st Apr 1982.

Nb Sub (Cik) Bakhtawar Khan (JC-92011K), 1st Apr 1982.

To be Subs

Nb Sub Banarsi Dass (JC-92004N), 1st Apr 1982.

Nb Sub Parveen Singh (JC-447X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-476M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Abdullah Khan (JC-475M), 1st Apr 1982.

The Kumaon Regt

To be Sub

Nb Sub Banwari Lal (JC-83835L), 1st May 1981.

Nb Sub Banwari Ram (JC-83836N), 1st June 1981.

Nb Sub Kartar Singh Yadav (JC-83852L), 10th Aug 1981.

Nb Sub Satvavir Singh (JC-84313F), 1st Sep 1981.

Nb Sub Umed Singh (JC-86518P), 11th Oct 1981.

Nb Sub Ram Chander (JC-90776F), 1st Feb 1982.

Nb Sub Kanhiya Ram (JC-84312Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Shankar Lal (JC-90211F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Lalice Ram (JC-92341H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Shivdan Singh (JC-97977Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Mahinder Singh (JC-92928Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Jhabbu Singh (JC-97488H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Subash Chander (JC-97489L), 1st Apr 1982.

Nb Sub Ajit Singh (JC-99712H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-103303P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Banwari Lal (JC-99715W), 1st June 1982.

Nb Sub Ghisa Ram (JC-107108L), 1st June 1982.

Nb Sub Bache Singh (JC-103323H), 17th Aug 1982.

Nb Sub Ram Singh (JC-82833N), 1st Oct 1982.

- Nb Sub Johar Singh (JC-82834W), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Bhani Ram (JC-81264Y), 1st July 1981.
 Nb Sub Kharak Singh (JC-78865Y), 1st Aug 1981.
 Nb Sub Parmal Chand (JC-82079K), 1st Dec 1981.
 Nb Sub Sarjit Singh (JC-82013F), 1st Jan 1982.
 Nb Sub Rameshwar Dass (JC-82014K), 1st Jan 1982.
 Nb Sub Sat Pal (JC-82018A), 1st Jan 1982.
 Nb Sub Tara Chand (JC-66234K), 1st Feb 1982.
 Nb Sub Diwan Singh (JC-82080M), 1st Feb 1982.
 Nb Sub Gulab Singh (JC 75047M), 1st Mar 1982.
 Nb Sub Shish Ram (JC-82090W), 1st Mar 1982.
 Nb Sub Vishwanath Singh (JC-83834H), 1st Mar 1982.
 Nb Sub Ramesh Chandra Joshi (JC-85242X), 1st Apr 1982.
- Nb Sub Nayan Singh Karki (JC-68260K), 1st Jan 1982.
 Nb Sub Keshav Datt Joshi (JC-82085L), 1st Feb 1982.
 Nb Sub Mohan Nath (JC-83845P), 1st Jan 1982.
 Nb Sub Hira Ballabh Pande (JC-86029K), 1st Jan 1982.
 Nb Sub Dol Singh (JC-89040N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Padam Singh (JC-89041W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Tej Singh (JC-91329P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Rup Singh (JC-92926W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Man Singh (JC-92348M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Mohan Nath (JC-92349P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Singh (JC-92483K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Trilok Singh (JC-97484M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Guman Singh (JC-97485P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Soban Singh Bisht (JC-92930Y), 1st May 1982.
 Nb Sub Sher Singh (JC-92931F), 1st June 1982.
 Nb Sub Dhan Singh (JC-103295F), 1st June 1982.
 Nb Sub Diwan Singh (JC-103296K), 1st June 1982.
 Nb Sub Laxman Singh (JC-92932K), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Havat Singh (JC-89429F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Desh Ram Yadav (JC-94808F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Laxman Singh (JC-96102L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Lala Ram (JC-97494W), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Patirakhan Singh (JC-83936Y), 1st June 1980.
 Nb Sub Ram Singh Majila (JC-75048P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Nandan Singh (JC-77489K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Prabhu Narain Singh (JC-94809K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hira Ram Arya (JC-77490Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Partap Singh (JC-78468A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Madan Singh (JC-81259N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Dhan Singh (JC-82835Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-82836F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Har Singh (JC-91114W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Soban Singh (JC-66743L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Dharma Nand (JC-83849L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bholu Datt (JC-85112P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Prem Singh (JC-99704K), 1st Aug 1982.
- Nb Sub Parameswaran Pillai Sivasankaran Nair (JC 65856Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Narayanan Thiruvikraman Nair (JC 66931K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub K C Anandan (JC 72122A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ayyam Perumal A (JC 81741P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Natarajan (JC 83153A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chandrasekharan Nair N (JC 86208K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Unnikrishnan V (JC 87396H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Thonangi Janardana Rao (JC 91823L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Nanoo Vasudevan (JC 74849K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ommi Divakaran (JC 83721A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub D P Anthonyswamy (JC 84478A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub P V Purushothaman (JC 84073P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sankaran Ezhuthachan (JC 86211K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Muthiah (JC 93374A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Annamari Thyappan Madhavan (JC 97104H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub N Bhaskaran (JC 86532F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub M Raman Pillai (JC 90450W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Senthathia Ramasamy (JC-91308Y), 8th Apr 1982.

To be Sub (Clk)

- Nb Sub (Clk) Vikraman Pillai P N (JC 77046H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) P C Hamdas (JC 79446N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) P Joseph Fernando (JC 81187P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) S Chellappa (JC 84076H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) T Venkatesan (JC 86256K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) G Thangappan Nair (JC-86916W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) K Kunhikrishnan (JC 87839Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Varkey M M (JC 89462), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Valioarambil Ayyapanni Mohanan (JC 89463F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Kunhikannan PV (JC 89464K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Velekesseri Sreedharan (JC 90448Y), 1st Apr 1982.

To be Sub

- Nb Sub K Chandrasekaran Nair (JC 66080H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Thirvu (JC 66081L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub N P Mathew (JC 72121X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sanku Subbaiah (JC 66082N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Mohammed Kherathy (JC 83154H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Puthanveetil Sasidharan (JC 83158Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Y Ramakrishna Reddy (JC 84084F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Velappan J (JC 84484N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Usaf Abubaker (JC 84485W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Selvaengaraj Venkatanarayanan (JC 84531A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub K Sreedharan Nair (JC 84532M), 1st Apr 1982.

*The Madras Regt**To be Sub Maj*

- Sub C C Koshy (JC-59109X), 1st Feb 1982.
 Sub V K Vikraman (JC 44695N), 1st Apr 1982.
 Sub P A Suryanarayanan (JC 35542H), 1st Apr 1982.
 Sub Balakrishnan Nair K SM (JC 43091H), 1st Apr 1982.
 Sub K Narayanan (JC 44683Y), 1st Apr 1982.
 Sub Balakrishnan Nair K (JC-44093A), 1st Apr 1982.
 Sub S Marisamy (JC-48659A), 1st Apr 1982.

To be Sub Maj (Clk)

- Sub (Clk) S Arunachalam (JC 53578K), 1st Apr 1982

To be Sub

- Nb Sub Samuel Thampam. SM (JC 65323W), 1st Apr 1982

Nb Sub Syamalan (JC 66083W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub N Chinnasamy (JC 83155L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub P R Raghavan (JC 83156N), 1st Apr 1982
 Nb Sub N Janardhanan (JC 75147X), 20th Apr 1982.
 Nb Sub A Alagarsamy (JC 77459M), 1st May 1982.
 Nb Sub Adapa Ramadas (JC 81473W), 1st May 1982.
 Nb Sub P Appaji (JC 84074X), 1st May 1982.
 Nb Sub C K Gajendran (JC 92422H), 1st May 1982.
 Nb Sub Kurian P G (JC 76915A), 1st June 1982.
 Nb Sub T H Thomas (JC 92423L), 1st Aug 1982.
 Nb Sub K M Kumaran Nair (JC 94215P), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Kathukuttiyil Velayudhan (JC 93988H), 8th Apr 1982.
 Nb Sub K Balakrishnan Nair (JC 92866M), 4th Sep 1982.

*THE MARATHA LI**To be Sub Maj (Clk)*

Sub Clk Jagjit Singh Farwaha (JC-63675P), 1st Sep 1982.
 Sub Clk Venkatdas Kamat (JC-64220L), 1st Oct 1982

To be Sub Maj

Sub Anna Jadhav (JC-52215N), 1st July 1982.
 Sub Pandurang Udugade, SM (JC-46305Y), 1st July 1982.
 Sub Hiru Sawant (JC-47407F), 1st July 1982.
 Sub Shivram Jijaram Killedar (JC-49297W), 1st Oct 1982.
 Sub Kisan Gaikwad (JC-64600K), 1st Dec 1982.
 Sub Vishwanath Naik (JC-44898X), 1st Jan 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Antoo Prasad Pasi (JC-77453L), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) Shankar Nimat (JC-83764P), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) Ramchandra Nikam (JC-83772N), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) Krishna Chirmure (JC-84187A), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) M P Kalyana Shetti (JC-84738H), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) Anantrao Shedge (JC-91304H), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) P K Damodaran Nambiar (JC-91305L), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) N Balakrishna Pillai (JC-93367K), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) Gurunath Joshi (JC-96540N), 1st July 1982

Nb Sub (Clk) A Samuel (JC-97160F), 1st July 1982.

Nb Sub (Clk) Vaman Gharage (JC-97867Y), 1st July 1982.

Nb Sub Clk Powar Vithoba (JC-97869K), 1st July 1982.

Nb Sub Clk Rane Manohar (JC-101138W), 1st July 1982.

Nb Sub Clk Joshi Shreepad (JC-101139Y), 1st Sep 1982

Nb Sub Clk Shankar Kulkarni (JC-101137N), 1st Oct 1982.

*The Mechanised Infantry Regiment**To be Sub Maj*

Sub Purbhu Singh (JC-18424Y), 1st Mar 1982.
 Sub Baudha Bahadur Rai (JC-48724P), 1st Apr 1982.
 Sub Chatru Ram (JC-38346N), 1st Apr 1982.
 Sub Jagpal Singh (JC-17851H), 1st Apr 1982.
 Sub Onkar Singh (JC-44673P), 1st Apr 1982.
 Sub Faqir Singh (JC-39828P), 1st Apr 1982.

Sub Purañ Singh (JC-46173W), 1st Apr 1982.

Sub Khushi Ram Jakhmola (JC-60371M), 1st Apr 1982

Sub Kulman Thapa (JC-58428X), 1st Apr 1982.

Sub Prem Bahadur Thapa (JC-54858K), 1st June 1982

Sub Phul Singh (JC-54016Y), 1st July 1982.

Sub Shamrao Bhosle (JC-44115N), 1st Aug 1982.

To be Subedar

Nb Sub Rajendra Singh (JC-62433A), 1st Oct 1981.

Nb Sub Dhonkai Singh (JC-67147H), 1st Nov 1981.

Nb Sub Jaswant Singh (JC-71868K), 1st Dec 1981.

Nb Sub Shambhu Nath Chaubey (JC-73999N), 1st Feb 1982.

Nb Sub Ramesh Chandra Sharma (JC-72918W), 1st Jan 1982.

Nb Sub Mohan Lal (JC-77068F), 10th Jan 1982.

Nb Sub Kartar Singh (JC-85263Y), 21st Jan 1982

Nb Sub Jagat Singh (JC-71459W), 1st Apr 1982.

Nb Sub Ramkwar (JC-85822M), 1st June 1982.

Nb Sub Hari Ram (JC-92876W), 1st July 1982.

Nb Sub Raghbir Singh Negi (JC-84884A), 1st Jan 1982.

Nb Sub Kunwar Singh Jagi (JC-86055L), 1st Apr 1982

Nb Sub Ranpat Singh (JC-83701M), 1st Mar 1982.

Nb Sub Budh Singh (JC-87845M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Prahlad Singh (JC-90020M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sheobalak Singh (JC-90101M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Paras Nath Singh (JC-91315P), 1st June 1982.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-87856F), 1st July 1982.

Nb Sub Jagroop Singh (JC-92906H), 1st Aug 1982.

Nb Sub Dharm Singh (JC-79864H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sohan Singh (JC-80093L), 1st Apr 1982

Nb Sub Duni Chand (JC-82066A), 1st Apr 1982

Nb Sub Karn Singh (JC-83642L), 1st Apr 1982.

Nb Sub Goverdhan Singh, VC (JC-83780M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Karn Singh (JC-83781P), 1st Aug 1982

Nb Sub Nar Bahadur Gurung (JC-79998F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Joginder Singh (JC-82117H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Lal Singh (JC-81269X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Inder Bahadur Pradhan (JC-82859H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Risal Singh (JC-86066X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-92434X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bhagat Singh (JC-94779X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bakram Singh (JC-76256W), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bhagat Singh (JC-84067F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sivaram Power (JC-84153M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Ram Swaroop (JC-94830M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Swami Ram (JC-98750M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Ganpat Singh (JC-98749X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Jagat Singh (JC-90824F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Rangrao Bajbale (JC-93712M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Udai Singh (JC-104949M), 31st May 1982.

Nb Sub Sardar Singh (JC-82615P), 1st Oct 1982.

Nb Sub Mahendra Singh (JC-86596M), 5th Oct 1982.

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk MK Pappachan (JC-100496P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Clk Ranjit Singh (JC-100490N), 1st Apr 1982.

Nb Sub Clk Jai Prakash (JC-105824F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Clk Braham Pal Singh (JC-102851A), 1st Apr 1982.

Nb Sub Clk Govind Ram Sharma (JC-102852H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Clk Nanda Ballabh Bhatt (JC-102853L), 1st Apr 1982.

Nb Sub Clk Harihar Sharma (JC-102854N), 1st Apr 1982.

To be Naib Subedar

Hav Ganpat Singh (No 2959387N Now JC), 1st Dec 1981.

Hav Raj Kumar (No 2960147H Now JC) 1st Feb 1982.

Hav Surendrapal Singh (No 2961108W Now JC), 3rd Feb 1982.

Hav Kailashpati Tripathi (No 2962477A Now JC), 8th Mar 1982.

Hav Narain Singh (No 2962074A Now JC), 8th Mar 1982.

Hav Ravinder Kumar (No 2962656A Now JC), 8th Mar 1982.

The Naga Regiment

To be Sub

Nb Sub Raje Singh Rawat (JC 76251X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Trilok Singh (JC 76252A), 1st Apr 1982.

Nb Sub Govind Singh Thapa (JC 78461W), 1st Apr 1982.

Nb Sub Alemkaba Ao (JC 77043P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Harakh Singh (JC 83550Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Niliadhari Mao (JC 81738P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Amar Bahadur Gurung (JC 86528Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Daili Mao (JC 74703W), 1st Apr 1982.

Nb Sub Jawahar Singh Negi (JC 87353N), 1st Apr 1982.

Nb Sub NG Angleng Chou (JC 86529F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sangram Singh Rawat, Vrc (JC 98645W), 1st June 1982.

Nb Sub K Darthung Anal (JC 94331X), 1st June 1982.

The Raj Rif

To be Sub Maj

Sub Mohd Yusuf (JC 65337W), 1st Jan 1982.

Sub Autar Singh (JC 46128K), 1st Jan 1982.

Sub Hari Pal Mahlawat (JC 72543H), 1st Jan 1982.

Sub Richhpal Singh (JC 35264A), 1st Apr 1982.

To be Sub Maj Clk

Sub Risal Singh Clk (JC 53294A), 1st Apr 1982.

To be Sub

Nb Sub Bharat Singh (JC 79636A), 1st Jan 1982.

Nb Sub Bajrang Lal (JC-92436H), 1st Jan 1982.

Nb Sub Bhagwat Singh (JC 58300M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Budd Pal (JC 84778F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Brahm Singh (JC 81171K), 1st Apr 1982.

Nb Sub Daya Ram (JC 81760A), 1st Apr 1982.

Nb Sub Jabar Singh (JC 90018P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Mamchand Ram (JC 94851H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Harjit Singh (JC 80020Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Desh Raj (JC 87849H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC 97441X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sampat Singh (JC 87848A), 1st Apr 1982.

Nb Sub Med Singh (JC 93722W), 1st Apr 1982.

Nb Sub Partap Singh (JC 91650Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sawai Singh (JC 87846P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Nemi Chand (JC 97440P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Deep Singh (JC 105289M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Devi Singh (JC 103547H), 20th June 1982.

Nb Sub Sohan Singh (JC 84770P), 1st Aug 1982.

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC 92914F), 1st Aug 1982.

Nb Sub Deva Singh (JC-81761H), 1st Aug 1982.

Nb Sub Jagmal Singh (JC-95279M), 1st Aug 1982.

Nb Sub Jagmal Singh (JC 91314M), 17th Aug 1982.

Nb Sub Bher Singh (JC 90017M), 01 Jul 1981.

Nb Sub Visheshwar Singh (JC 90102P), 01 Nov 1981.

Nb Sub Surendra Singh (JC 66061X), 01 Dec 1981.

Nb Sub Ram Newaj Singh (JC 71477Y), 01 Jan 1982.

Nb Sub Datta Ram (JC 79092W), 01 Jan 1982.

Nb Sub Mohkam Singh (JC 84759W), 01 Jan 1982.

Nb Sub Parbhu Ram (JC 84762W), 01 Feb 1982.

Nb Sub Ghisu Singh (JC 92908N), 01 Feb 1982.

Nb Sub Daryao Singh (JC 75021X), 01 Apr 1982.

Nb Sub Sumer Singh (JC-78574Y), 01 Apr 1982.

Nb Sub Bhim Singh (JC 86027Y), 01 Apr 1982.

Nb Sub Mange Lal (JC 92918X), 01 Apr 1982.

Nb Sub Gian Chand (JC-79632K), 01 Apr 1982.

Nb Sub Girand Singh (JC 75023H), 01 Apr 1982.

Nb Sub Bir Singh (JC 92911N), 01 Apr 1982.

Nb Sub Lakshmi Narain (JC 81762N), 01 Apr 1982.

Nb Sub Ami Lal (JC 81764W), 01 Apr 1982.

Nb Sub Lal Chand (JC 83670X), 01 Apr 1982.

Nb Sub Umrao Singh Ram (JC 80878P), 01 Apr 1982.

Nb Sub Man Singh (JC 80017Y), 01 Apr 1982.

Nb Sub Prabhu Dayal (JC 85576M), 01 Apr 1982.

Nb Sub Ridh Karan (JC 95602W), 01 Apr 1982.

Nb Sub Chandgi Ram (JC 89159X) 01 Apr 1982.

Nb Sub Hayat Mohammad Khan (JC 81753K), 01 Apr 1982.

Nb Sub Bhanwar Singh (JC 96156M), 01 Apr 1982.

Nb Sub Chander Singh (JC 75608X), 01 Apr 1982.

Nb Sub Hoshiar Singh (JC 96161K), 01 Apr 1982.

Nb Sub Hanumana Ram (JC 96157P), 01 Apr 1982.

Nb Sub Jaman Singh (JC 93671A), 01 Apr 1982.

Nb Sub Sheopal Singh (JC 96163H), 01 Apr 1982.

Nb Sub Balwan Singh Malik (JC 92912W), 01 Apr 1982.

Nb Sub Hoshiar Singh (JC 99862Y), 01 Apr 1982.

Nb Sub Lakh Singh (JC 97436M), 27 Apr 1982.

Nb Sub Dharambir Singh (JC 92920P), 01 May 1982.

Nb Sub Har Narain (JC 96158K), 01 May 1982.

Nb Sub Sambhu Singh (JC 84761W), 23 May 1982.

Nb Sub Jeswen Ram, SM (JC 90021P), 01 June 1982.

Nb Sub Bishan Singh (JC 79801K), 01 Jul 1982.

Nb Sub Ram Narain (JC 82586L), 01 Aug 1982.

Nb Sub Gajendra Singh (JC-84766M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Ram Singh (JC-83684X), 1st Apr 1982.

Nb Sub Sadule Khan (JC-83114F), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bishram Singh (JC-84729Y), 1st July 1982.

Nb Sub Raj Narain Singh (JC-95280F), 1st Aug 1982.

Regiment of Artillery

To be Sub Maj

Sub Kabal Singh (JC-50798H), 1st June 1982.

Sub Gurdev Singh (JC-84284X), 1st July 1982.

Suo Avtar Singh Randhawa (JC-50382L), 1st July 1982.
 Suo Jagtar Singh Dnmsa (JC-50929H), 1st July 1982.
 Sub Naina Singh (JC-53551W), 1st Aug 1982.
 Sub Ajit Singh (JC-56446F), 1st Aug 1982.
 Sub Nazir Singh (JC-56450K), 1st Aug 1982.
 Suo Agia Singh (JC-56452P), 1st Aug 1982.
 Sub Jarnaul Singh (JC-56693P), 1st Aug 1982.
 Sub Moti Kam (JC-45471A), 1st Aug 1982.
 Sub Karam Singh (JC-77921A), 1st Aug 1982.
 Sub Jarnaul Singh (JC 49866Y), 1st Aug 1982.
 Sub Darshan Singh Panglia (JC-49583X), 1st Aug 1982.
 Suo Bhag Singh (JC-68185L), 1st Sep 1982.
 Sub Jaya Narayan (JC-44288L), 1st Sep 1982.
 Sub A Kaviendran (JC-49939A), 1st Sep 1982.
 Sub MⁿK. Poovaiyah (JC-53392A), 1st Sep 1982.
 Suo Kam Kanwar (JC-47216H), 1st Sep 1982.
 Sub Kadhika Prasad Tripathi (JC-48626P), 1st Sep 1982.
 Sub Jit Singh (JC-56935X), 1st Sep 1982.
 Sub Dubag Singh (JC-68194M), 1st Sep 1982.
 Sub Surender Singh (JC-53412H), 1st Sep 1982.
 Sub Rati Ram, SM (JC-45599L), 1st Sep 1982.
 Sub Madhavan Kutty Nair K (JC-49938X), 1st Sep 1982.
 Sub Thandi Ram (JC-47598F), 1st Sep 1982.
 Sub Balbir Singh Grewal (JC-62874W), 1st Sep 1982.
 Sub Makhan Lal (JC-47149M), 1st Oct 1982.
 Sub Hanuwant Singh (JC-47929X), 1st Oct 1982.
 Sub Bhumrao Jadhav (JC-45369X), 1st Oct 1982.
 Sub C P E Unni (JC-53400N), 1st Oct 1982.
 Sub Ajit Singh (JC-68625N), 1st Oct 1982.
 Sub M Shamraju (JC-53407X), 1st Oct 1982.
 Sub Balwant Singh (JC-50381H), 1st Oct 1982.
 Sub V V Ramachandra Panikar (JC-45284F), 1st Oct 1982.

To be Sub Maj (SKT)

To be Sub
 Nb Sub Rajbir Singh (JC-87071P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hari Singh Rawat (JC-96233W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kedar Singh (JC-93815L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Mohar Singh (JC-87742N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hoshiar Singh (JC-84341L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bal Krishna More (JC-89413W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Vithal More (JC-91806L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Gangadharan K P (JC-95038M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Patincharu Veettil Krishnan Kutty (JC-90156W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kameshwar Tiwari (JC-92363F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub M A Ignatius (JC-94025H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Tarlok Singh (JC-98392M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Krishna Gopinathan Nair (JC-97050M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Gobind Ram (JC-100125M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Tarlok Singh (JC-99800Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sukhdev Singh Sidhu (JC-97042N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Narayanan P (JC-96235F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Gopalakrishnan, Vrc (JC-84283P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Puthen Veettil Shreedharan (JC-83899W), 1st Apr 1982.

Nb Sub G Subbarao (JC-94357N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Deneeswar Ujra (JC-110095H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Rama Singh (JC-100843F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hari Singh (JC-101830X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kattiseril Kochu Pappu Ravindran (JC-106889F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Juglal Singh Yadava (JC-108222Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bharat Parshad (JC-104138F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chellian M (JC-104557X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Rohtas Singh Chauhan (JC-108761P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Daulat Ram Sharma (JC-109553M), 29th Aug 1982.
 Nb Sub Harphool (JC-112486W), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Prithpal Singh Dhanda (JC-109598M), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Dharam Singh (JC-108726M), 3rd Dec 1982.
 Nb Sub Parshuram Patil (JC 90160Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Maruti Kadam (JC-87757W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Arjun Rai (JC-94277P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Mallappa Ganikop (JC-91427P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chain Singh (JC-97041L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hari Ram Yadav (JC-98388K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Suraj Singh (JC-100158X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Tukaram Naik (JC-100155H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kirsan (JC-99571Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sohan Lal (JC-90144F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chirinji Lal Yadav (JC-106667M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Kanwar (JC-105182X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Chander Ahlawat (JC-105204L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hakam Singh (JC-110076H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Harnath Ram Pal (JC-109116M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Jang Bahadur Singh (JC-110073P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bhanudas Fadtare (JC-111936X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Jayawant Bhor (JC-110346M), 11th June 1982.
 Nb Sub Rang Rao Patil (JC-112114M), 18th July 1982.
 Nb Sub Ram Labhaya Sharma (JC-101056N), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Thumula Rajagopala Rao (JC-109600Y), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Krishna Jagdale (JC-108770W), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Dinkar Bhosle (JC-108747H), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Madan Singh (JC-108714X), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Avtar Singh (JC-94273Y), 1st Nov 1982.

*Armoured Corps**To be Ris Maj*

Risaldar Joginder Singh (JC-51730Y), 01st Apr 1982.
 Risaldar Siri Ram (JC-69888Y), 01st Apr 1982.
 Risaldar Chambel Singh (JC-56473K), 01st Apr 1982.
 Risaldar Gopal Dass (JC-60348Y), 01st Apr 1982.
 Risaldar Jai Karan (JC-56483P), 01st Apr 1981.
 Risaldar Vir Singh (JC-70269X), 01st Apr 1982.
 Risaldar Karam Singh Parwana (JC-52377Y), 01st Apr 1982.
 Risaldar Bhajan Lal Harchand (JC-61996N), 01st Apr 1982.
 Risaldar Madhav Singh (JC-56029P), 01st Apr 1982.
 Risaldar Faiz Mohmed Khan (JC-51346M), 01st Apr 1982.

Risaldar Jang Bahadur Singh (JC-60349F), 01st Apr 1982.
 Risaldar Darshan Singh (JC-70276K), 01st Apr 1982.
 Risaldar Mani Ram (JC-61918W), 01st Apr 1982.
 Risaldar Babu Singh (JC-47389K), 01st Apr 1982.
 Risaldar Teja Singh (JC-54778M), 01st Apr 1982.
 Risaldar Bishan Singh (JC-63537N), 01st Apr 1982.
 Risaldar Sada Ram (JC-63551A), 01st Apr 1982.
 Risaldar Kashmir Singh (JC-64603X), 01st Apr 1982.
 Risaldar Satpal Singh (JC-46888M), 01st Apr 1982.
 Risaldar Ajit Singh (JC-81202Y), 01st May 1982.
 Risaldar Birbal Ram (JC-69910Y), 01st June 1982.
 Risaldar Jagir Singh (JC-61567M), 01st July 1982.
 Risaldar Kurra Ram (JC-54760W), 01st Aug 1982.

To be Ris

Naib Risaldar Bhanwar Singh (JC-78479M), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Bhagat Singh (JC-79655L), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Joginder Singh Gill (JC-79836W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Mohinder Singh Dhaliwal (JC-79656N), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Hardip Singh Sandhu (JC-79657W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Raj Bir Singh (JC-79837Y), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Chaino Ram Sharma (JC-83921W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Amrao Singh Teja (JC-83922Y), 01st Apr 1982.

To be Ris Maj

Risaldar Mandhir Singh (JC-70792H), 01st Apr 1982.

To be Ris

Naib Risaldar Anang Pal Singh (JC-79832A), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Jai Pal Singh (JC-78981F), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Raghunandan Singh (JC-82478A), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Bakhshish Singh (JC-82473H), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Gurdial Singh (JC-81426Y), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Ponnuswamy Reddy C (JC-73525M), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Ran Singh (JC-81423L), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Nanhaku Singh (JC-82484P), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Prahlad Singh (JC-84148F), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Hussain Khan (JC-90490X), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Sardari Lal (JC-92319X), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Suraj Bhan (JC-95102Y), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Bachitt Singh (JC-87826F), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Bijay Singh (JC-97122L), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Chinnathi Arumugam (JC-79189F), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Indra Pal Singh (JC-92396M), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Gian Chand (JC-83909H), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Udai Singh Chauhan (JC-92401M), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Gurdip Singh (JC-85476F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Hawa Singh (JC-96661P), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Girwar Singh (JC-82165H), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Chanan Singh (JC-100930W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Khushi Ram (JC-92858N), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Ram Naresh Singh (JC-96636W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Rattan Singh Parmar (JC-82470P), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Gouri Hari Khatai (JC-90966Y), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Shamsher Bahadur Singh (JC-95511H), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Vijay Singh (JC-90116P), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Arjun Singh Yadav (JC-95514A), 01st May 1982.
 Naib Risaldar Padam Singh (JC-91785A), 01st June 1982.
 Naib Risaldar Bhag Singh (JC-94574H), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Chaman Lal (JC-92859W), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Sukh Raj Singh (JC-83926P), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Rewal Singh (JC-90122H), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Kabal Singh Sandhu (JC-95086M), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Gurcharan Singh (JC-100896F), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Beg Raj Singh (JC-96656K), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Sucha Singh (JC-92860L), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Bani Singh (JC-100931Y), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Sumer Singh (JC-80924Y), 01st Sep 1982.
 Naib Risaldar Santa Singh (JC-95525M), 01st Sep 1982.
 Naib Risaldar Tehal Singh (JC-98306W), 01st Sep 1982.
 Naib Risaldar Ajaib Singh (JC-92328Y), 09th Sep 1982.
 Naib Risaldar Hoshiar Singh (JC-100943N), 01st Oct 1982.
 Naib Risaldar Malla Ram Yadav (JC-97125Y), 08th Oct 1982.
 Naib Risaldar Bal Singh Aulakh (JC-94579A), 01st Nov 1982.
 Naib Risaldar Ali Akbar (JC-84145N), 01st July 1981.
 Naib Risaldar V Bhaskaran Nair (JC-82451K), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Dalip Singh (JC-87715K), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-84037K), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Bal Ram (JC-85491W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Hamir Singh (JC-84214A), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Siri Ram (JC-73533L), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Ghulam Sarwar Khan (JC-77648W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Tarlochan Singh Rana (JC-72030N), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Surjit Singh (JC-85492Y), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Jagdish Singh (JC-87483W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Deep Chand (JC-90488A), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar OM Prakash Singh (JC-91773L), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Mahendra Singh (JC-96633H), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Jagjit Singh (JC-80927M), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Dharma Rajan Munisamy (JC-82471X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Maqsudan Singh (JC-85490N), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Ajit Singh (JC-76233P), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Mahendra Singh (JC-90120X), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Ram Kishan (JC-82452M), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Gian Chand Sharma (JC-81427F), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Hari Singh Bhati (JC-84211L), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Bhanwar Singh (JC-95530X), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Gurnam Singh (JC-85205K), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Nek Singh SM (JC-87807W), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Satpal Singh (JC-89089K), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Venkata Samy Srinivasan (JC-84135X), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Hans Raj Singh (JC-90971K), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Raghavan Ramesan (JC-89739F), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Manik Ram (JC-93898F), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Ram Nath Singh (JC-93809X), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Bachan Singh (JC-78748W), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Devapalan Nair (JC-95097Y), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Kayam Singh (JC-87477H), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Jit Ram (JC-74758A), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Dalip Singh (JC-87480P), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Mange Ram Taksak (JC-82488L), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Chhitar Singh (JC-87716M), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Baby Kurjakose (JC-96648L), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Malak Singh (JC-82480Y), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Karam Chand (JC-96640Y), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Sohan Singh (JC-84036F), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Sham Singh (JC-82450F), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Hawa Singh (JC-90123L), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Darshan Singh Randhawa (JC-96663A), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Mahepal Singh (JC-90857M), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Surjit Singh (JC-97126F), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Rajinder Singh (JC-94563W), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Devi Datt (JC-101778A), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Shyam Singh (JC-92402P), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Surjit Singh (JC-101777X), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Paritam Singh (JC-90113F), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Man Singh (JC-97139Y), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Jai Singh (JC-91384L), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Joginder Singh (JC-99622F), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Raj Kanwar Singh Teotia (JC-91386W), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Narindar Singh (JC-100950K), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Ajaib Singh (JC-95531A), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Harbans Singh (JC-100952P), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Dhakan Singh (JC-83920N), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Gurdial Singh (JC-85496P), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Patil Dattu Pandurang (JC-82497M), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Devi Datt (JC-82492N), 02nd Apr 1982.	Naib Risaldar A Manickam (JC-83778P), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Maidhan Verma (JC-85983P), 03rd Apr 1982.	Naib Risaldar Mundoli Velluva Narayanan (JC-87476A), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Jit Bahadur Singh (JC-87708N), 04th Apr 1982.	Naib Risaldar Hari Buksh Singh (JC-94565F), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Ram Chandra Singh (JC-95091X), 05th Apr 1982.	Naib Risaldar Vindhychal Ram (JC-86251L), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Jagdish Singh (JC-93810M), 06th Apr 1982.	Naib Risaldar Jermy Pais Vokkethur (JC-92323A), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Onkar Singh Pathania (JC-91387Y), 04th May 1982.	Naib Risaldar Mohammad Safeer Khan (JC-87806N), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Dharampal Suhag (JC-90497F), 01st Aug 1982.	Naib Risaldar Hari Chand (JC-94577W), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Ajit Singh Verma (JC-94573A), 01st Aug 1982.	Naib Risaldar Shiv Nandan Singh Chauhan (JC-98324Y), 01st Apr 1982.
Naib Risaldar Dina Nath (JC-82468X), 01st Dec 1981.	Naib Risaldar Girdhara Singh (JC-95534N), 01st May 1982.
Naib Risaldar Lal Chand Verma (JC-82449M), 01st Dec 1982.	Naib Risaldar Har Pal Singh (JC-86504P), 01st May 1982.
Naib Risaldar Raj Pal Singh Verma (JC-82167N), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Ram Mohan Singh (JC-90125W), 01st May 1982.
Naib Risaldar Makham Singh (JC-82177X), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Chanan Singh (JC-97131M), 01st June 1982.
Naib Risaldar Ranjit Singh (JC-81203F), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Mohammad Nasim (JC-90494N), 03rd June 1982.
Naib Risaldar Rajinder Singh (JC-87482N), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Ranvir Singh (JC-76258F), 30th Dec 1981.
Naib Risaldar Sudagar Singh (JC-85487H), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Deep Singh (JC-94012L), 01st Jan 1982.
Naib Risaldar Amin Chand (JC-73524K), 01st Apr 1982.	Naib Risaldar Ram Chandra Singh (JC-79842K), 01st Feb 1982.
	Naib Risaldar Thekkadavan Vadakke Veetil Karunakaran (JC-78674K), 01st Feb 1982.
	Naib Risaldar Jodh Singh (JC-77879M), 01st Mar 1982.
	Naib Risaldar Dalip Singh (JC-82453P), 01st Apr 1982.

- Naib Risaldar Narain Singh (JC-78984P), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Rati Ram (JC-81431K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Thomas Chacko Chittakad (JC-78210M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Angrez Singh (JC-78982K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Pazhe Koilath Kutti Krishnan Nambiar (JC-82472A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Dalip Chand (JC-81208A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Sukhpal Singh (JC-82175M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Thenali Manikya Rao (JC-82173F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Bashir Mohammad (JC-82479K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Jagan Singh (JC-84144L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Sher Singh (JC-84217M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Dev Singh Baidwan (JC-85469L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Thayath Anandan (JC-86248L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Shamsher Singh (JC-90485M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Parameswaran Somasekharan Nair (JC-89086W), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Bhanwar Singh (JC-95093H), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Harchand Singh Dhillon (JC-86242K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Tirath Ram Dudowal (JC-87805L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Nihal Singh Bhadauria (JC-90124N), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Baljinder Singh (JC-90858N), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Rajendra Prasad Singh (JC-90114K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Gurdip Singh (JC-91775W), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ram Chander, VrC (JC-92406L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Gurbachan Singh (JC-90967F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Surjit Singh (JC-95099K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar K. A. Ramachandran (JC-95095N), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ujalay Singh (JC-91782M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Mahendra Singh (JC-95094L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Kishan Lal (JC-87825Y), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Raghubir Singh (JC-95519Y), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ranbir Singh (JC-90975A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Jarnail Singh (JC-95098F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Kalyan Singh (JC-95090P), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Darshan Singh Deol (JC-95518W), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Harbhajan Singh (JC-95508M), 01st May 1982.
- Naib Risaldar Phul Dass (JC-78471A), 01st Jan 1982.
- Naib Risaldar Kamla Prasad (JC-85497X), 01st Jan 1982.
- Naib Risaldar Piyare Lal Yadava (JC-78480F), 01st Feb 1982.
- Naib Risaldar Mehar Singh (JC-82487H), 01st Feb 1982.
- Naib Risaldar Kamikkar Singh (JC-80931P), 01st Mar 1982.
- Naib Risaldar Sant Kumar (JC-70248F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Jahar Singh (JC-78477F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Gurmail Singh (JC-78678A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Rattan Singh (JC-92393X), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Waryam Singh Gill (JC-78869P), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Randhir Singh (JC-78754F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Kalu Singh (JC-81900F), 17th Jan 1982.
- Naib Risaldar Kishan Singh (JC-76756N), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Megh Singh (JC-90753L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ran Singh (JC-92320M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Darshan Singh (JC-77881K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Balbir Singh (JC-82495F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Harpal Singh (JC-91777F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Samir Singh (JC-90974X), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ghasi Ram Khatkar (JC-84142A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Balbir Singh (JC-79833H), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Dash Rath Singh (JC-82474L), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ram Singh (JC-83777M), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Bawa Ditta (JC-85470A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Shanker Singh (JC-87479N), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Kapur Chand (JC-87803A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Sher Singh (JC-87714F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Pritam Singh (JC-89382F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Karan Singh (JC-91780F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Raj Kumar (JC-92394F), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Nand Lal (JC-91783P), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Zille Singh (JC-96639K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Padmanabhan Moyarath (JC-90964N), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Ajaib Singh (JC-84040K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Mohinder Singh Randhawa (JC-82483K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-85210P), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Harphul Singh Dhaliwal (JC-85484A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Indra Bakhsh Singh (JC-91784X), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Dinesh Singh (JC-92403X), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Sarjit Singh (JC-86250H), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Sucha Singh Randhawa (JC-87704X), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Anchal Singh (JC-85475Y), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Santokh Singh (JC-90495W), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Rameshwar (JC-110195Y), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Mehtab Singh (JC-96658P), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Shri Ram (JC-98316A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Guman Singh (JC-99764Y), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Hari Chand (JC-100937A), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Kashi Singh (JC-95510K), 01st Apr 1982.
- Naib Risaldar Amar Singh (JC-91776Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bahadur Singh (JC-87485F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Azizur Rehman (JC-87810W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Laxman Singh (JC-90965W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Diwan Chand (JC-91779M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Hawa Singh (JC-94564Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bhawani Singh Shekhawat (JC-95515H), 01st Aug 1982.

Naib Risaldar Gyan Singh (JC-74264W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Govind Singh (JC-67434M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jokhu Singh Yadav (JC-70247Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Umrao Singh (JC-73385L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Roshan Lal (JC-79831X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Prem Singh (JC-81433P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Tejpal Singh (JC-82498P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar P K Alagesan (JC-84213W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Tej Singh Naruka (JC-70274H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ranjit Singh (JC-81421F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ishwar Dass (JC-80934H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ratan Singh Chattha (JC-83919Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Madho Singh (JC-77645H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Malam Singh (JC-77646L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bhup Singh (JC-81198N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Rattan Singh (JC-81429M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ajmer Singh (JC-85472L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Raja Singh Chauhan (JC-85986H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Nagina Singh (JC-85991N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ram Singh (JC-87804H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ram Sakal Singh (JC-87809F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Harpal Singh (JC-89088F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Amarpal Singh (JC-83928A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Gurmit Singh (JC-85478M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Hanuman Singh (JC-85988N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Kalwant Singh (JC-85989W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Dharam Chand (JC-95088X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Abdul Hamid Khan (JC-95089A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Sajjan Singh (JC-97121H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Din Singh (JC-95507K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Balasaheb Patil (JC-92857L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Sheo Raj Singh (JC-97147X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Charan Singh (JC-91772H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Kadam Singh (JC-90754N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Shami Ullah Khan (JC-92397P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ishwar Singh Kadian (JC-92863Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Balbir Singh (JC-95521W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jaipal Singh (JC-89385P), 01st July 1982.

Naib Risaldar Sewa Singh (JC-93813A), 01st July 1982.

Naib Risaldar Brijendra Singh Rana (JC-79191Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Gurdial Singh (JC-79839K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Mul Chand (JC-78870K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bhagwan Singh (JC-84138X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Fateh Singh Sangwan (JC-81209H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Naranjan Singh (JC-82459W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Yash Karan Singh (JC-84210P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Manphool Singh (JC-84215F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jagir Singh (JC-87484Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Madan Chand (JC-80926K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ganga Bishan (JC-81430F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Mehtab Singh (JC-82491L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Karnail Singh (JC-85203Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Muthu Mannil Karumathil Vijayan (JC-90492H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Raj Singh (JC-76754H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Sardar Singh (JC-85207P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Daya Chand, SM (JC-87828M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bhim Singh (JC-90855F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Rajpal Singh (JC-92321P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Murad Ali (JC-82457L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-86245X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Mohinder Singh Guraya (JC-85204F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Mohinder Singh (JC-85480K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Malkiat Singh Lobana (JC-86252N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Nirmal Singh (JC-89082A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Hardhan Singh (JC-87711N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Risal Singh (JC-90109Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Puthen Purayil Lakshmanan (JC-94235H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Dilbagh Singh (JC-85485H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Amar Singh (JC-90487X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Hayat Mohammad (JC-86246A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Yash Pal Singh (JC-90972M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Inder Singh (JC-98309K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar OM Parkash (JC-97140N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Kaloo Khan (JC-95517A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Koovan Koyodan Uthaman (JC-91770X), 02nd Apr 1982.

Naib Risaldar V. Devaraj (JC-92325L), 03rd Apr 1982.

Naib Risaldar Das Shetty Bhaskaran (JC-85474W), 04th Apr 1982.

Naib Risaldar Abdul Hameed Isahaq (JC-94236L), 05th Apr 1982.

Naib Risaldar Uppumthara Panjan Karappan (JC-95103 F), 06th Apr 1982.

Naib Risaldar Appekattu Vijaya Kumaran (JC-97141W), 07th Apr 1982.

Naib Risaldar Roh'tash Singh (JC-83912P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Partap Singh (JC-86501F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Shrinivas Pawar (JC-78873X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Chain Singh (JC-78209X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jit Singh (JC-87488P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Dharam Pal Singh (JC-90969M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Nirvair Singh (JC-87475V), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ajit Singh (JC-84140P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Harbhup Singh Sidhu (JC-85209A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ajit Singh (JC-86498M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Sunder Singh Verma (JC-85985P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Daya Nand (JC-85495W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ranjit Singh (JC-81428K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Raj Bir Singh (JC-82496K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Shaqoor Khan (JC-60398K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bipin Bihari Verma (JC-87808Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Madhukar Ghadge (JC-63563P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Angad Singh Sengar (JC-90121A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ram Chander Yadava (JC-74650H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ummed Singh (JC-75036A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Surat Singh (JC-83924K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Amar Chand Saini (JC-84038M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Chuni Lal (JC-87706H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bikram Singh Sandhu (JC-89381Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Balraj Singh (JC-90752H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ram Chander (JC-93897Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Sampuran Singh (JC-90115M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Didar Singh (JC-93899K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Bhupendra Singh (JC-96634L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Rampal Singh (JC-93811P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Gurbachan Singh (JC-95533L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Anant Ram (JC-78208P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Rakshpal Singh (JC-87710L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Randhir Singh (JC-90489H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Gurbachan Singh (JC-85465P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Ishwar Singh (JC-90859X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jarnail Singh (JC-95083Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Prahlaad Singh (JC-84141X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Narain Singh (JC-79840X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Shiv Karan (JC-82170N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-95523F), 01st May 1982.

Naib Risaldar Sadasivan Pillai Parmeswaran Pillai (JC-99788H), 17th July 1982.

Naib Risaldar Shrimant Gayakwad (JC-95522Y), 16th Aug 1982.

To be Ris (Clerk GD)

Naib Risaldar Clk GD Kashmir Singh (JC-87017F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Harbans Singh (JC-87811Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Maharaj Singh (JC-87812F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Anant More (JC-87814M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Surain Singh (JC-87815P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Mohammad Farooq (JC-87816X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Malkhan Singh (JC-87818H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Harish Chandra (JC-87819L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Raghbir Singh (JC-90498K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD M Balakrishna Menon (JC-90861 P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Kehar Singh (JC-90970F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Vidya Parkash (JC-94017K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Dharampal Singh Shishodia (JC-94240N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Ranbir Singh Rawat (JC-87813 K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Harbhajan Singh (JC-87718X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Balwant Singh (JC-90499M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Jagdish Lal (JC-94241W), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Gurbachan Singh (JC-94237N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Gurdip Singh (JC-95104K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Harbans Singh (JC-95526P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Pritam Singh (JC-95536Y), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Roop Chander Singh (JC-95537 F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Lakhwant Singh (JC-95538K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Rama Nand Singh (JC-96666N), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Palwinder Singh (JC-97143F), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Karm Chand Katoch (JC-97144 K), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Charan Singh (JC-97146P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD D Deva Irakkam (JC-98327M), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Mekala Peda Rosaiah (JC-98328 P), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Ramesh Lal Sharma (JC-104115 A), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Shiv Ram Singh (JC-100966P),
01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Rup Singh Pathania (JC-100967
X), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Hukum Singh (JC-100968A), 01st
Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Ram Kishan Dhadwal (JC-100969
H), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Clk GD Paras Nath Singh (JC-100914Y),
01st July 1982.

To be Ris (Storekeepers Technical)

Naib Risaldar SKT Piara Singh (JC-82486A), 01st Mar
1982.

Naib Risaldar SKT Hazara Singh (JC-85477K), 01st Apr
1982.

Naib Risaldar SKT A Jaganathan (JC-88875W), 01st Apr
1982.

Naib Risaldar SKT Khazan Singh (JC-88876Y), 01st Apr
1982.

Naib Risaldar SKT Surat Singh (JC-90756Y), 01st Apr
1982.

Naib Risaldar SKT Sukhdev Singh (JC-92407N), 01st
Apr 1982.

Naib Risaldar SKT Munir Mian (JC-95527X), 01st Apr
1982.

Naib Risaldar SKT Kallepalli Raja Rao (JC-95528A),
01st Apr 1982.

Corps of Engineers

Bengal Engineer Group

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Ram Parkash (JC-43759F), 1st Jan 1983.

To be Sub

Nb Sub Kalyan Singh (JC-83807Y), 1st June 1982.

Nb Sub Rewa Dhar (JC-84509P), 1st June 1982.

Nb Sub Sidheshwar Singh (JC-89848Y), 1st June 1982.

Nb Sub Nagendra Singh (JC-98373F), 1st June 1982.

Nb Sub Ghanshyam Oli (JC-99539K), 1st June 1982.

Nb Sub Kundan Singh (JC-99001H), 1st June 1982.

Nb Sub Ari Chand (JC-99006F), 1st June 1982.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-94956M), 1st Jan 1983.

Nb Sub Khima Nand (JC-96193A), 1st Jan 1983.

Nb Sub Pan Singh Adhikari (JC-82399M), 1st Jan 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Avtar Singh (JC-82505A), 1st June 1982.

Nb Sub Clk Gurmej Singh (JC-82298Y), 1st June 1982.

Nb Sub Clk Chinta Mani Bhatt (JC-64891P), 1st June
1982.

Nb Sub Clk Amar Singh (JC-78395Y), 1st June 1982.

To be Sub (SKT)

Nb Sub SKT Sita Ram Singh (JC-108998M), 1st June
1982.

Bombay Engineer Group

To be Subedar Major (GD)

Subedar Arjan Singh (JC-43744Y), 1st June 1982.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Harjinder Singh (JC-80860Y), 1st July 1982.

Nb Sub Sarup Singh Pall (JC-93109K), 1st July 1982.

To be Sub Major Clk (GD)

Subedar Nichhattar Singh (JC-68462L), 1st June 1982.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Yesh Pal (JC-87003F), 1st July 1982.

To be Subedar SKT

Nb Sub Muhar Singh Dohare (JC-95184M), 1st July
1982.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Ajit Singh (JC-82508N), 1st July 1982.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Ramchandra Dalvi (JC-87685K), 1st July 1982.

Nb Sub Satya Pal (JC-90548K), 1st July 1982.

Nb Sub Amar Singh (JC-92473W), 1st Jan 1983.

Nb Sub Jagjit Singh (JC-94008H), 1st Jan 1983.

Nb Sub Malook Singh (JC-93180X), 1st Jan 1983.

Nb Sub Vasudev Pawar (JC-94492A), 1st Jan 1983.

Nb Sub Naipal Sharma (JC-95185P), 1st Jan 1983.

Nb Sub Joginder Singh (JC-94503F), 1st Jan 1983.

Nb Sub Om Parkash Ajad (JC-94504K), 1st Jan 1983.

Nb Sub Balkrishna Sawant (JC-95197K), 1st Jan 1983.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Lal Chand (JC-84130L), 1st July 1982.

Nb Sub Ajit Kumar (JC-86353F), 1st July 1982.

To be Subedar (SKT)

Nb Sub Ramakant Mishra (JC-96603L), 1st July 1982.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Darbara Singh (JC-89148L), 1st July 1982.

Nb Sub Hari Ranjan Gupta (JC-47683K), 1st July 1982.

Nb Sub Shankar Sakpal (JC-90411K), 1st July 1982.

Nb Sub Pritam Singh (JC-93892A), 1st July 1982.

Nb Sub Ganapati Ranmale (JC-93887P), 1st July 1982.

Nb Sub Shamsunder Rane (JC-92474Y), 1st July 1982.

Nb Sub Abdul Majid (JC-89441H), 1st July 1982.

Nb Sub Hardial Singh (JC-89442L), 1st July 1982.

Nb Sub Amrik Singh (JC-89443N), 1st July 1982.

Nb Sub Sadashiv Shinde (JC-89449P), 1st July 1983.

Nb Sub Gulwant Singh (JC-92465X), 1st July 1982.

Nb Sub Anant Shinde (JC-87684P), 1st July 1982.

Nb Sub Mustaq Ahmed (JC-75940M), 1st July 1982.

Nb Sub Shridhar Surve (JC-86218N), 1st July 1982.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Sohan Singh (JC-67965W), 1st July 1982.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Mohinder Singh (JC-92477M), 1st July 1982.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Mahamood Ali Bhatotia (JC-88867X), 1st July
1982.

Nb Sub Kharaiti Lal Sharma (JC-90477N), 1st July 1982.

Corps of Engineers

Madras Engineer Group

To be Sub

Nb Sub Rangaswamy Seetharaman (JC-80023M), 01st
Aug 1982.

MES MILITARISED CADRE

(To be Subedar)

Nb Sub Parapatna Samuel John (JC-76561H), 01st Jul
1980.

Nb Sub Melappa Dengi (JC-62844Y), 01st Sep 1982.

Nb Sub P R Subhash (JC-65827K), 01st Sep 1982.

- Nb Sub Arava Mallikarjuna (JC-65111L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Babu Korah (JC-65113W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Puthirikkal Damodaran (JC-65026H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Kalarickalayeliyil Govindan Mohan Lal (JC-65790N), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Challaguruvula Venkata Subbarao (JC-65028N), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Surendra Singh Rawat (JC-66373N), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Om Prakash Trivedi (JC-66379P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Atma Singh (JC-69686X), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Charan Singh Dhillon (JC-69683K), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Krishna Pillai K (JC-69685P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Bikram Singh (JC-69688H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Manjit Singh (JC-69707H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Mohan Lal (JC-74891H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Karakanal Krishna Panicker Damodaran Pillai (JC-74930W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Sadhu Singh (JC-74899P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Kumara Pillay Ananda Padmanabhan Nair (JC-74913W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Suresha Chand (JC-74162A), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Awtar Singh Sran (JC-76149P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Amrik Singh Thind (JC-74173M), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Balakrishna Nair (JC-76355Y), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Cheeran Kuzhyil Devassia Joseph (JC-74528X), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Nellikal Krishnan Nair Vasu Nair (JC-76559L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Vijay Desh Pande (JC-76368W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Nirmal Singh (JC-81327W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Sukramjit Singh (JC-80819H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Mathilakath Abdul Hamsa (JC-79133P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Pritam Singh (JC-79249L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Hari Singh Jaggi (JC-74522L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Sukhchain Singh Sidhu (JC-49241K), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Karmala Veedu Parameswaran Madhavan Pillai (JC-49364W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Mir Afzal Hussain (JC-54103M), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Nageswara Rao Mandalapu (JC-52630P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Nawin Chandra Lohani (JC-53307M), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Puran Singh (JC-52330N), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Manathanath Kunhali Rajan (JC-54154A), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Thylur Mallaiah (JC-54065F), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Ame Bopanna Kalappa (JC-54081Y), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Swaran Singh (JC-54366L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Charan Dass (JC-54219H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Sukhdarshan Singh Dhaliwal (JC-55935A), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Hans Raj (JC-63670W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Thimmaiah (JC-57545W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Kallingal Kumaran (JC-57552M), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Major Singh (JC-61123H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Rajendra Prasad Dobhal (JC-61124L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Sarvan Singh Maan (JC-61129A), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Nallu Sivaramaiah (JC-62232F), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Achyut Laxmanrao Kukarni (JC-62840H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Gurmail Singh Braich (JC-64932N), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Mohd Amin Khan (JC-64933W), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Nand Lal (JC-64915L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Ved Parkash Siwach (JC-64953K), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Ramesh Chandra Gairola (JC-64968M), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Kshetrabasi Patri (JC-68347L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Mool Chandra (JC-64975H), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Ranjit Singh Mathoda (JC-64977N), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Norman David Clarence (JC-65646Y), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Candadai Chellappa (JC-65647P), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Mohammed Yusuff (JC-65033Y), 01st Sep 1982.
- Corps of Signals*
- To be Sub Maj (GD)*
- Sub Ishwar Singh (JC-70300Y), 1st Apr 1982.
- Sub Munni Lal (JC-71091Y), 1st Apr 1982.
- To be Sub Maj (OP Ciph)*
- Sub Paras Ram (JC-49717L), 1st Nov 1981.
- Sub K Thampy (JC-52086Y), 1st Apr 1982.
- Sub P Vasu (JC-52087F), 1st Apr 1982.
- Sub Raghavan Nambiar (JC-53245X), 1st Apr 1982.
- To be Sub Maj (Clk GD)*
- Sub Darbara Singh Mand (JC-60227X), 1st Apr 1982.
- Sub Kamta Prasad Singh (JC-62188H), 1st Apr 1982.
- To be Sub Maj (F of S)*
- Sub Data Ram (JC-52103N), 1st May 1982.
- To be Sub Maj (GD)*
- Sub Narain Dass (JC-71086N), 1st May 1982.
- Sub Harsame Singh (JC-71159P), 1st July 1982.
- Sub Sreedhara Panicker CK (JC-73768X), 1st Dec 1982
- Sub V Subramanian (JC-73778F), 1st Jan 1983.
- To be Sub Maj (Y of S)*
- Sub Kunj Bihari (JC-56102H), 1st Dec 1982.
- To be Sub Maj (GD)*
- Sub Ramji Dass (JC-73774L), 1st Dec 1982.
- Sub Iqbal Singh (JC-73775N), 1st Jan 1983.
- Sub Baldev Raj (JC-74053N), 1st Jan 1983.
- To be Sub Maj (F of S)*
- Sub Santokh Singh Parmar (JC-52109P), 1st May 1982.
- To be Sub (GD)*
- Nb Sub Charan Singh Simar (JC-83289K), 1st Feb 1982.
- Nb Sub Tirbhuwan Kishore Saxena (JC-85151N), 1st Apr 1982.
- Nb Sub E Sreedharan Nair (JC-85166N), 1st Apr 1982.
- Nb Sub Dhani Ram Sharma (JC-84554F), 1st Apr 1982.
- Nb Sub Bahadur Singh (JC-84560P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Darshan Singh (JC-87087A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Daya Ram Pande (JC-87775Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Nandan Singh Bhakuni (JC-88949A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Narinder Singh (JC-93233N), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Jagdish Chandra Tewari (JC-89118N), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Lal Singh (JC-88953H), 1st Jan 1983.

To be Sub (F of S)

Nb Sub Rattaq Chand (JC-77420A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ravinder Pal Rana (JC-82750H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Dhari (JC-82751L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bankim Chandra Sinha (JC-94914A), 1st Jan 1983.

To be Sub (V of S)

Nb Sub Ishwar Dass (JC-93496K), 1st Jan 1983.

To be Sub (OP Ciph)

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-76024X), 1st Apr 1982.

To be Sub (GD)

Nb Sub Bhim Raj Pawar (JC-82665A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub R Chandran (JC-83269W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sandhia Dass Minhas (JC-84557P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Raghbir Singh (JC-84559A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sat Pal (JC-88957Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sambhaji Deshmane (JC-88977M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub N Joy Kutty Antony (JC-90766H), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Kalam Singh Rawat (JC-93207K), 15th Oct 1982.
 Nb Sub Daya Ram (JC-93221W), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Mahaveer Prasad (JC-93222Y), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Ram Parshad (JC-93231A), 1st Dec 1982.

To be Sub (Y of S)

Nb Sub Prithwi Singh (JC-70367X), 1st Apr 1982.

To be Sub (F of S)

Nb Sub M P Sreedharan Nair (JC-79627Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Shri Chand Singh (JC-82746A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Madu Ram Gurawaria (JC-89456L), 1st Nov 1982.

To be Sub (OP Ciph)

Nb Sub Daniel Koshi (JC-83320L), 1st Apr 1982.

To be Sub (Clk GD)

Nb Sub Gurunath Rao (JC-74112P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bakhtawar Singh Bains (JC-95216K), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Bhrigunath Kumar (JC-95217M), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Purushothaman Kalarickal (JC-95218P), 3rd Dec 1982.
 Nb Sub Babu Ram (JC-95219X), 6th Dec 1982.

To be Sub (SKT)

Nb Sub S Appavoo (JC-98039A), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Dharam Deo Pandey (JC-98040P), 1st Dec 1982.

Nb Sub Chandra Prakash Darbal (JC-102630N), 1st Dec 1982.

To be Sub (GD)

Nb Sub Subi Singh (JC-87091H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Pramod Kumar Garnaik (JC-93219Y), 1st Nov 1982.

To be Sub (Y of S)

Nb Sub Gopalan Karthikeyan (JC-90273F), 1st Sep 1982.

To be Sub (OP Ciph)

Nb Sub Sardar Singh (JC-85672F), 1st Dec 1982.

To be Sub (Clk GD)

Nb Sub Ram Pravesh Ram (JC-95215A), 1st Sep 1982.

To be Sub (SKT)

Nb Sub Dattatraya Paul (JC-98038X), 1st Sep 1982.

To be Sub (GD)

Nb Sub Karam Singh (JC-85140F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Raj Girhi Singh (JC-87132F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Chander (JC-87106A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Suresh Anand (JC-87143N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Jai Singh (JC-88942W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ergal P J (JC-88968L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Nirmal Singh (JC-88970H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Balbir Singh (JC-90770L), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Dharam Singh Pinglia (JC-90782A), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Magan Singh (JC-90263X), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Pritam Singh (JC-90783H), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Hans Raj (JC-90784L), 1st Sep 1982.
 Nb Sub P C Lonappan (JC-90266L), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Himat Singh (JC-90786W), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Badri Singh (JC-90787Y), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Bhim Bahadur Ram (JC-90788F), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Krishnan Chellappan (JC-90789K), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Lashkar Singh (JC-90790Y), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Karan Singh (JC-90791F), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Bachan Singh (JC-93205Y), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Varghese AJ (JC-90268W), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Atla Gopala Reddy (JC-93213X), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Chamel Singh (JC-93214A), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Sarjit Singh Mankotia (JC-93220N), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Ram Lakhani Singh (JC-90269Y), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Abdul Rehman (JC-93224K), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Ram Pal Singh (JC-93227X), 1st Dec 1982.
 Nb Sub KO Kurian (JC-93229H), 1st Dec 1982.

Nb Sub Raghunath Patil (JC-93230X), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Maha Singh Verma (JC-93234N), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Hari Shankar Singh (JC-87130W), 1st Dec 1982.
 Nb Sub P C Bhaskaran Nair (JC-87097K), 1st Dec 1982.

To be Sub (Y of S)

Nb Sub Kewal Krishan (JC-82759X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chandra Datt Mainali (JC-77431M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Gomti Prasad Singh (JC-85659X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Satya Bhan Pathak (JC-90797H), 1st May 1982.
 Nb Sub Prem Raj Kaushik (JC-90798L), 1st June 1982.
 Nb Sub Yashwant Ghorpade (JC-90274K), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Dilbag Singh Dhakka (JC-90276P), 1st Dec 1982.

To be Sub (F of S)

Nb Sub Chandrika Pandey (JC-77425Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Pritam Singh (JC-79623H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Mahadeo (JC-79624L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Munindra Prasad Misra (JC-71815L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Didar Singh (JC-82752Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Gopal Sharma (JC-85517A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Madan Singh (JC-85633H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Prathibha Nath Ray (JC-87112L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kumaran Aredath (JC-87785L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Gurcharan Singh (JC-90802H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kamble Umaji Raghoba (JC-90805X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Raj Kishan Khanna (JC-85645X), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Dineshwar Mishra Dinesh (JC-90800X), 1st Dec 1982.

To be Sub (OP Ciph)

Nb Sub Govinda (JC-74118W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Shekhar Chandra Jain (JC-79600F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Chanchal Singh (JC-79603N), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kamala Saheb Shirahatti (JC-85182N), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Ajit Kumar Ghosh (JC-85183W), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Kewal Krishan Sharma (JC-85670W), 1st Oct 1982.

To be Sub (Clk GD)

Nb Sub Ram Gopal Tripathi (JC-87147K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Kuldip Singh Cheema (JC-89452P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Emmanuel Barla (JC-90271W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Papadiyil Janardhanan Pillai Raveendra Nathani Pillai (JC-93482K), 1st June 1982.

Nb Sub Harish Chander Verma (JC-93484P), 1st Aug 1982.

Nb Sub Awadhesh Upadhyay (JC-94952W), 1st Sep 1982.

To be Sub (OP Spec)

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-74127X), 1st Apr 1982.

S K RAY, Under Secy.

No. 166, dated 2nd January 1984.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

(Army Service Corps)

(Mechanical Transport)

To be Subedar Major (Religious Teachers)

Sub Maj (Pandit) Vidya Parkash Sharma (JC-11605F), 1st May 1983.

Sub Maj (Pandit) Daya Ram (JC-14614N), 1st May 1983.

To be Subedar Major

Subedar Shahzada Singh (JC-78043F), 5th Jun 1983.

Subedar Jhabar Singh (JC-78045M), 1st Jul 1983.

Subedar Govind Kulkarni (JC-78048A), 1st Aug 1983.

To be Subedar

Nb Sub V Govinda Rao (JC-96845N), 6th May 1983.

Nb Sub Bidhi Chand (JC-96846W), 26th May 1983.

Nb Sub Ved Prakash Sharma (JC-96847Y), 1st Jun 1983.

Nb Sub Nek Ram (JC-96848F), 1st Jun 1983.

Nb Sub Abdul Rehman (JC-96849K), 1st Jun 1983.

Nb Sub Maha Ram (JC-96850Y), 5th Jun 1983.

Nb Sub Raghu Raj Singh Tyagi (JC-96851F), 1st Jul 1983.

Nb Sub Chanchal Ram (JC-96852K), 1st Jul 1983.

Nb Sub Jaswant Singh (JC-96853M), 1st Jul 1983.

Nb Sub Hira Pandey (JC-98125L), 16th Jul 1983.

Nb Sub Radha Krishen Dher (JC-98126N), 24th Jul 1983.

Nb Sub Ujala Singh (JC-98127W), 1st Aug 1983.

Nb Sub Hanoman Singh (JC-98094W), 1st Aug 1983.

Nb Sub Keshab Prasad Sah (JC-92140K), 1st Aug 1983.

Nb Sub Nagar Singh (JC-92141M), 1st Aug 1983.

Nb Sub Mohan Lal (JC-92142P), 23rd Aug 1983.

Nb Sub Kaduba Sable (JC-92144A), 23rd Aug 1983.

Army Service Corps

(Supply)

To be Substantive Subedar (Personal Assistant)

Sub Mudradi Achutha Kamath (JC-111261H), 30th July 1983.

Sub Kunumul Ramakrishnan Nair (JC-111262L), 01st Oct 1983.

Sub Kishan Singh (JC-111263N), 09th Oct 1983.

To be Substantive Subedar Clerk (GD/SD)

Sub Durga Prasad Sah (JC-99965X), 08th Oct 1983.

Smt. B NAGESWARI, Under Secy.

No. 167, dated 4th January 1984.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to resign their Commission from Army Service wef the dates noted against their names, at their own request for their personal reasons:

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

1. Capt A K Ahluwalia (IC-27148H) EME—22nd Oct 1980 (AN).

2. Capt Sanjay Gupta (IC-27737Y), EME—26th Jun 1981 (AN).

SULTAN MAHMOOD, Lt Col, AMS-7

(Finance Division)

New Delhi, the 9th January 1984

No. A-22012/2/83-Estt-1(198).—The President is pleased to appoint the following permanent Grade I Officers of CSS in the Selection Grade of the same Service wef the 31st Dec 1983 until further orders :—

(1) Shri K R Natarajan

(2) Shri Babu Lal

(3) Shri S S Jatav

2. The President is also pleased to appoint the above mentioned Officers as Deputy Financial Advisers in the Finance Division of the Min of Def wef the 31st Dec 1983.

No. A-22013/2/82-Estt-1.—The President is pleased to appoint Shri P N Nayar, a regular Section Officer of the CSS Cadre of the Min of Def as Desk Officer in the Finance Division of the Min of Def wef the 9th Dec 1983 (afternoon) until further orders.

B K DUTT, Assistant Financial Adviser (E)

